

**महाराष्ट्र शासन**  
**उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग,**  
**मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-३२, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९**  
**अधिसूचना**

**क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१** - महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १९९४ मधील तरतूदी व मा. उच्च न्यायालयाने वेगवेगळ्या याचिकांमध्ये वेळोवेळी दिलेल्या आदेशानुसार विद्यार्थ्यांना योग्य व दर्जदार शिक्षण देणे हे विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालयांचे आद्य कर्तव्य असून, त्याकरिता आवश्यक ती सर्व उपाययोजना करण्याची जबाबदारी या संस्थांची आहे.

महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, १९९४, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ अधिनियम, १९८९, श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, १९७४ आणि कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ अधिनियम, १९९७ मधील तरतूदी अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालये यांच्यातून कार्य करणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचारी/अधिकाऱ्यांच्या वेतनश्रेणीत सुधारणा करण्याकरिता राज्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकारी संस्थांमार्फत चालविली जाणारी महाविद्यालये वगळून प्रमाणसंहिता नियम खालीलप्रमाणे विहित करीत आहे:-

**१. संक्षिप्त नाव आणि प्रारंभ :-**

(१) या नियमांना महाराष्ट्र अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालये प्रमाणसंहिता (शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सुधारित वेतन) नियम, २००९ असे संबोधण्यात यावे.

(२) ते दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासून अंमलात आले आहेत, असे मानण्यात येईल.

**२. हे नियम लागू होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे प्रवर्ग**

(१) हे नियम खालील १२ अकृषि विद्यापीठांच्या शिक्षकेतर पदांच्या आढाव्यानुसार शासनाने मान्य केलेल्या पदांवर कार्यरत असलेल्या पूर्णकालीक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना व संलग्नित अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर पदांच्या होणाऱ्या आढाव्याच्या अधीन राहून पूर्णवेळ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना राज्य शासन आणि स्थानिक प्राधिकारी संस्थांमार्फत चालविली जाणारी महाविद्यालये वगळून लागू होतील.

(i) मुंबई विद्यापीठ, मुंबई,

(ii) पुणे विद्यापीठ, पुणे

(iii) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

(iv) राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, नागपूर

(v) शिवाजी विद्यापीठ, कोल्हापूर

(vi) स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठ, नांदेड

(vii) श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी महिला विद्यापीठ, मुंबई,

(viii) संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, अमरावती

(ix) उत्तर महाराष्ट्र विद्यापीठ, जळगाव,

(x) सोलापूर विद्यापीठ, सोलापूर

(xi) कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत विद्यापीठ, रामटेक, जि. नागपूर

(xii) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर तंत्रशास्त्र विद्यापीठ, लोणे.

(२) हे नियम खालील कर्मचाऱ्यांना लागू होणार नाहीत.

(i) पूर्णकालिक कामावर नसलेले कर्मचारी,

(ii) एकत्रित वेतनावरील कर्मचारी,

- (iii) कंत्राटी कर्मचारी,
- (iv) आकस्मिक खर्चातून ज्यांना वेतन दिले जाते असे कर्मचारी,
- (v) रोजंदारीवरील कर्मचारी,
- (vi) जे कर्मचारी ३१.१२.२००५ रोजी किंवा तत्पूर्वी सेवानिवृत्त झाले आणि ज्यांना सेवानिवृत्तीनंतर पुन्हा त्या तारखेस नियुक्त करण्यात आले आणि ज्यांच्या सेवानिवृत्तीनंतरचा पुनर्नियुक्तीचा कालावधी त्या तारखेनंतर वाढवून दिला आहे, असे कर्मचारी.

**३. व्याख्या :-**

संदर्भानुसार दुसरा अर्थ अपेक्षित नसेल तर, या नियमात :-

- (१) "**जोडपत्र**" म्हणजे या नियमांसोबत जोडलेली जोडपत्रे.
- (२) सुधारित वेतन संरचनेतील '**मूळ वेतन**' म्हणजे विहित 'वेतन बँड' मध्ये आहरित करीत असलेले वेतन अधिक अनुज्ञेय ग्रेड वेतन; परंतु ज्यामध्ये "**विशेष वेतन**" इत्यादी सारख्या वेतनाचा समावेश नसेल.
- (२) "**विद्यमान मूळ वेतन**" म्हणजे विहित करण्यात आलेल्या वेतनश्रेणीत आहरित करीत असेलेले वेतन ज्यामध्ये कुंठित वेतनवाढ अथवा वेतनवाढीचाही समावेश असेल; परंतु ज्यामध्ये "**विशेष वेतन**" इत्यादी सारख्या वेतनाचा समावेश नसेल.

**(४) "विद्यमान वित्तलब्धी"** मध्ये ---

- (i) विद्यमान मूळ वेतन,
  - (ii) मूळ वेतनावरील समुचित महागाई वेतन आणि
  - (iii) मूळ वेतन आणि महागाई वेतनावरील समुचित महागाई भन्ना यांचा समावेश असेल.
- (५) "**विद्यमान श्रेणी**" म्हणजे १ जानेवारी, २००६ रोजी विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्याने, कायम असो, किंवा स्थानापन्न ह्या नात्याने असो; त्याने धारण केलेल्या पदावाला लागू असलेली सध्याची श्रेणी (किंवा, यथास्थिती, त्याला लागू असलेली वैयक्तिक श्रेणी अनुसूचीतील स्तंभ क्र.३ मध्ये दर्शविलेली आहे)

**स्पष्टीकरण १.-** जो विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचारी १ जानेवारी, २००६ रोजी भारताबाहेर प्रतिनियुक्तीवर किंवा रजेवर किंवा स्वीयेतर सेवेत होता किंवा जो वरच्या पदावर स्थानापन्न नसता तर त्या तारखेस एका किंवा अधिक खालच्या पदांवर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिला असता, अशा कर्मचाऱ्याबाबत "**विद्यमान श्रेणीत**" तो भारताबाहेर प्रतिनियुक्तीवर किंवा रजेवर किंवा स्वीयेतर सेवेत नसता किंवा यथास्थिती, वरच्या पदावर स्थानापन्न म्हणून नसता, तर त्याने जे पद धारण केले असते, त्या पदास लागू असलेल्या श्रेणीचा समावेश होतो.

**टीप.--** विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या वेतनश्रेणी वगळून अंमलात असलेल्या विद्यमान श्रेणीची सूची जोडपत्र-एक मध्ये (इंग्रजी भाषांतरासोबत) दिली आहे.

**स्पष्टीकरण २.-** विद्यापीठांमधील शिक्षकेतर संवर्गातील काही पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, त्यासाठी निर्धारित शैक्षणिक अर्हता यांचा विचार करून ज्या पदांमध्ये उपरोक्त बाबींमध्ये साधर्म्य आहे, अशी पदे भिन्न पदनामाने असली, तरी अनुसूचीच्या स्तंभ क्रमांक दोन मध्ये एकत्रित (Clubbing) केलेली आहेत. त्यामुळे अनुसूचीच्या स्तंभ तीनमधील विद्यमान वेतनश्रेणीनुसार प्रथम वेतन निश्चिती करून त्या पदास स्तंभ क्र.चार व पाच मध्ये दर्शविलेला सुधारित वेतन बँड (ऐ बॅण्ड) व ग्रेड वेतन दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासून लागू करण्यात यावे.

- (६) "ग्रेड वेतन"** म्हणजे अनुसूचीच्या स्तंभ ५ मध्ये सुधारणापूर्व वेतनश्रेणी अथवा पदासमोर नमूद केलेली नियत रक्कम.

- (७) "वेतन बँड मधील वेतन" म्हणजे अनुसूचीच्या स्तंभ ४ मध्ये नमूद केलेल्या वेतन बँडमध्ये घेत असलेले वेतन.
- (८) "सध्याची श्रेणी" म्हणजे अनुसूचीच्या स्तंभ २ मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही पदाच्या संबंधात त्या अनुसूचीच्या स्तंभ ३ मध्ये त्या पदासमोर नियत किंवा अन्यथा उल्लेखिलेली वेतनश्रेणी.
- (९) "सुधारित वित्तलब्धी" म्हणजे सुधारित वेतन संरचनेत विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यास अनुज्ञेय असलेल्या वेतन पे बँडमधील वेतन अधिक ग्रेड वेतन किंवा उच्च प्रशासकीय श्रेणी + (एचएजी+) वेतनश्रेणीतील मूळ वेतन.
- (१०) एखाद्या पदासंदर्भात वेगळ्याने सुधारित वेतन बँड आणि ग्रेड वेतन किंवा वेतनश्रेणी अधिसूचित करण्यात आली असेल, ती खेरीज करून कोणत्याही पदाची "सुधारित वेतन संरचना" म्हणजे अनुसूचीच्या स्तंभ २ मध्ये नमूद केलेल्या पदासमोर स्तंभ ४ आणि स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेले वेतन बँड आणि ग्रेड वेतन.

**टीप.--** सुधारित वेतन संरचनेची सूची जोडपत्र - दोन मध्ये (इंग्रजी भाषांतरासोबत) दिली आहे.

- (११) "अनुसूची" म्हणजे या नियमांना जोडलेली अनुसूची.

४. **पदांची वेतनश्रेणी किंवा वेतन संरचना.**-- या नियमांच्या प्रारंभाच्या दिनांकापासून, अनुसूचीच्या स्तंभ २ मध्ये नमूद केलेल्या प्रत्येक पदाचा वेतन बँड आणि ग्रेड वेतन अनुसूचीच्या स्तंभ क्र.४ आणि ५ मध्ये त्या पदासमोर नमूद केल्याप्रमाणे असेल.

५. **सुधारित वेतन संरचनेमध्ये वेतन काढणे.**-- या नियमांमध्ये, अन्यथा तरतूद केली असेल ती खेरीज करून शासकीय कर्मचारी, ज्या पदावर त्यास नेमले असेल त्या पदाला लागू असलेल्या सुधारित वेतन संरचनेत वेतन घेईल.

परंतु, ज्या दिनांकास विद्यमान वेतनश्रेणीतील लगतनंतरची किंवा पुढची कोणतीही वेतनवाढ त्याला देय होईल त्या तारखेपर्यंत किंवा तो आपले पद रिक्त करेपर्यंत किंवा त्या श्रेणीत वेतन घेणे बंद होईपर्यंत, विद्यमान श्रेणीमध्ये वेतन चालू ठेवण्याचा विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यास विकल्प देता येईल; परंतु आणखी असे की, दिनांक १ जानेवारी, २००६ आणि या नियमांच्या अधिसुचनेचा दिनांक या दरम्यान पदोन्नती, पदाची श्रेणीवाढ इत्यादीमुळे उच्च वेतनश्रेणी घेणाऱ्या विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यास पदोन्नतीच्या, पदाच्या श्रेणीवाढीच्या दिनांकापासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड करण्याचा विकल्प देता येईल.

**स्पष्टीकरण १.--** या नियमांच्या परंतुकानुसार विद्यमान श्रेणी ठेवण्याचा विकल्प केवळ एका विद्यमान श्रेणीबाबतच अनुज्ञेय राहील.

**स्पष्टीकरण २.--** दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी किंवा त्यानंतर एखाद्या पदावर, विद्यापीठीय अथवा महाविद्यालयीन कर्मचारी सेवेत प्रथमच किंवा दुसऱ्या पदावरून बदली करून नेमलेल्या कोणत्याही कर्मचाऱ्यास उपरोक्त विकल्प अनुज्ञेय असणार नाही आणि त्याला केवळ सुधारित वेतन संरचनेनुसारच वेतन मिळेल.

**स्पष्टीकरण ३.--** जेव्हा विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचारी, नियमितपणे स्थानापन्न म्हणून त्याने धारण केलेल्या पदाच्या बाबतीत त्या पदाला लागू असलेल्या कोणत्याही अन्य नियमांव्ये किंवा आदेशानुसार विद्यमान श्रेणीतील वेतनाच्या विनियमनासाठी या नियमाच्या, परंतुकानुसार ती श्रेणी कायम ठेवण्याचा विकल्प देत असेल तेव्हा, ज्या कायम पदावर त्याचा धारणाधिकार असेल किंवा धारणाधिकार तहकूब झाला नसता, तर त्याचा धारणाधिकार राहिला असता, त्या पदाच्या बाबतीत त्याने विद्यमान श्रेणी कायम ठेवली असती, तर त्याने घेतले असते ते कायम वेतन, किंवा त्यावेळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही आदेशानुसार कायम वेतनाचे स्वरूप प्राप्त झालेले स्थानापन्न पदाचे वेतन, यापैकी जे अधिक असेल ते त्याचे कायम वेतन राहील.

**६. विकल्प देणे.--**

(१) नियम ५ च्या परंतुकानुसार द्यावयाचा विकल्प, या नियमांना जोडलेल्या नमुन्यात (जोडपत्र - चार) लेखी द्यावा लागेल. हा विकल्प पोटनियम (२) मध्ये नमूद केलेल्या अधिकाऱ्यास, ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत किंवा या नियमांमध्ये केलेल्या कोणत्याही सुधारणेमुळे विद्यमान श्रेणी

सुधारण्यात आली असेल, तेव्हा त्या प्रकरणी अशा सुधारणेच्या आदेशाच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत पोहोचेल, अशा बेताने पाठविण्यात यावा.

परंतु.----

(एक) अशा प्रसिध्दीच्या दिनांकास किंवा यथास्थिती अशा आदेशाच्या दिनांकास विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचारी भारताबाहेर रजेवर, किंवा प्रतिनियुक्तीवर किंवा स्वीयेतर सेवेत किंवा युद्धसेवेत असेल, तेव्हा त्या बाबतीत अशा कर्मचाऱ्याने भारतात आपल्या पदाचा कार्यभार घेण्याच्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत उक्त प्राधिकाऱ्यास पोहोचेल, अशा रीतीने उक्त विकल्प द्यावा, आणि

(दोन) १ जानेवारी, २००६ रोजी विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचारी निलंबनाधीन असेल, तेव्हा त्याचा कामावर परत येण्याचा दिनांक या पोटनियमांमध्ये विहित केलेल्या दिनांकानंतरचा असेल, तर त्या दिनांकापासून एक महिन्याच्या आत त्याला विकल्प देता येईल.

(२) विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचारी हे त्यांचा विकल्प कार्यालय प्रमुखास कळवतील.

(३) विकल्पासंबंधीची सूचना पोटनियम (१) मध्ये नमूद केलेल्या कालावधीत मिळाली नाही तर, विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्याने १ जानेवारी, २००६ रोजी व त्याच दिवसापासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड केली, आहे असे समजण्यात येईल.

(४) एकदा दिलेला विकल्प अंतिम असेल.

**टीप.१-----** १ जानेवारी, २००६ रोजी किंवा त्यानंतर ज्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात आल्यामुळे आणि मृत्यु, मंजूर पदांच्या समाप्तीनंतरची कार्यमुक्ती, राजीनामा, शिस्तभंगाच्या कारणावरून बडतर्फी किंवा कार्यमुक्ती यामुळे विहित कालमर्यादेत ज्यांना विकल्प देता आला नाही, अशा व्यक्ती या नियमांचे लाभ मिळण्यास पात्र आहेत.

**टीप.२-----** १ जानेवारी, २००६ रोजी किंवा त्यानंतर मृत्यु पावल्यामुळे ज्यांना विहित कालमर्यादेत विकल्प देता आला नाही, त्यांनी १ जानेवारी, २००६ रोजी व त्याच दिवसापासून किंवा सुधारित वेतन संरचना अधिक अनुकूल असल्यास त्यांच्या अवलंबितांना जास्तीत जास्त लाभदायक असेल, अशा नंतरच्या तारखेपासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड केली आहे, असे मानले जाईल. अशा प्रकरणांमध्ये थकबाकी प्रदान करण्याची आवश्यक कार्यवाही कार्यालय प्रमुखाने करावी.

**टीप.३-----** १ जानेवारी, २००६ रोजी अर्जित रजेवर किंवा रजा वेतन प्रदेय असणाऱ्या इतर कोणत्याही रजेवर असलेले विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी या नियमांचा लाभ मिळण्यास पात्र असतील.

## ७. सुधारित वेतन संरचनेत प्रारंभिक वेतन निश्चिती.---

(१) दिनांक १ जानेवारी, २००६ पासून सुधारित वेतन संरचना लागू करण्याबाबत ज्याने विकल्प दिला आहे किंवा नियम ६ च्या पोटनियम (३) अनुसार विकल्प दिल्याचे मानण्यात आले आहे, अशा विद्यापीठीय अथवा महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्याबाबत, शासनाने विशेष आदेशाद्वारे अन्यथा निदेश दिले नसल्यास, त्याचे प्रारंभिक वेतन, ज्या कायम पदावर त्याचा धारणाधिकार आहे किंवा तो धारणाधिकार तहकूब झाला नसता, तर तो राहिला असता, त्या पदाच्या कायम वेतनाच्या बाबतीत आणि त्याने धारण केलेल्या स्थानापन्न पदाबाबत, खालीलप्रमाणे स्वतंत्रपणे निश्चित केले जाईल :-

**(अ) सर्व कर्मचाऱ्यांबाबत :-**

(एक) दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी सुधारित वेतन बँड अथवा वेतनश्रेणीमधील वेतन निश्चिती, विद्यमान वेतनश्रेणीतील मूळ वेतनास १.८६ ने गुणून येणाऱ्या रकमेच्या पुढील दहाच्या पटीतील रकमेवर करण्यात येईल.

(दोन) जर वरील (एक) प्रमाणे येणारे वेतन सुधारित वेतन बँड अथवा वेतनश्रेणीतील किमान टप्प्याहून कमी असेल, तर सुधारित वेतन बँड अथवा वेतनश्रेणीतील किमान टप्प्यावर वेतन निश्चित केले जाईल.

परंतु आणखी असे की :-

वरीलप्रमाणे वेतन निश्चिती करताना विद्यमान वेतनश्रेणीत लागोपाठ दोन किंवा त्याहून अधिक टप्प्यावर वेतन घेणाऱ्या विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन जेव्हा एकवटते म्हणजेच, सुधारित वेतन संरचनेमध्ये एकाच टप्प्यावर निश्चित होते, तेव्हा हे टाळण्यासाठी, विद्यमान वेतनश्रेणीतील एकवटणाऱ्या प्रत्येक दोन टप्प्यांना सुधारित वेतन बँडमध्ये एक वेतनवाढ देण्यात यावी. अशी वेतनवाढ वेतन बँडमधील वेतनावर देण्यात येईल, त्यामध्ये ग्रेड वेतनाचा समावेश असणार नाही.

जर वर नमूद केल्याप्रमाणे वेतन वाढवून दिल्यामुळे एखाद्या विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे वेतन सुधारित वेतन बँडमधील अथवा वेतन श्रेणीतील ज्या टप्प्यावर निश्चित होत असेल तो टप्पा, जर त्याच विद्यमान वेतनश्रेणीत पुढील वरच्या टप्प्यावर वेतन घेत असलेल्या दुसऱ्या विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे वेतन सुधारित वेतन बँड अथवा वेतनश्रेणीमध्ये निश्चित करण्यात आले असेल, त्या टप्प्यापेक्षा वरचा असेल, तर अशा दुसऱ्या विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे वेतन पहिल्या विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनापेक्षा जेवढ्या रकमेने कमी असेल फक्त तेवढ्याच रकमेने वाढवून देण्यात येईल.

(तीन) वरीलप्रमाणे वेतन बँडमधील वेतन निश्चित करण्यात येईल. वेतन बँडमधील या वेतनाबरोबरच विद्यमान वेतनश्रेणीसाठी विहित केलेले समुचित ग्रेड वेतनही अनुज्ञेय राहील.

(ब) विद्यमान वेतनश्रेणीतील वेतनाबरोबर विशेष वेतन अथवा भत्ता मिळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत, जेथे सुधारित वेतनबँड आणि ग्रेड वेतनाबरोबर विशेष वेतन, अथवा भत्ता अनुज्ञेय करण्यात आला नाही, त्याप्रमाणे सुधारित वेतन संरचनेत वरील खंड (अ) च्या तरतुदीनुसार वेतन निश्चित करण्यात येईल.

(क) विद्यमान वेतनश्रेणीतील वेतनाबरोबर अन्य कोणत्याही नामाभिधनाने विशेष वेतन अथवा भत्ता मिळत असेल आणि सुधारित वेतन संरचनेत विशेष वेतन अथवा भत्ता पूर्वीच्याच अथवा सुधारित दराने अनुज्ञेय करण्यात आला असेल तर, त्याप्रकरणी सुधारित वेतन संरचनेत वरील खंड (अ) च्या तरतुदीनुसार वेतन निश्चित करण्यात येईल.

टीप.१-- दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी 'रजा वेतन प्रदेय' रजेवर असलेल्या विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यास सुधारित वेतन संरचना दिनांक १ जानेवारी, २००६ अथवा विकल्पानुसार सुधारित वेतन संरचना स्विकृतीच्या दिनांकापासून लागू होईल, तसेच दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी अध्ययन रजेवर असलेल्या विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यास या नियमांचा लाभ दिनांक १ जानेवारी, २००६ अथवा विकल्पानुसार सुधारित वेतन संरचना स्विकृतीच्या दिनांकापासून लागू होईल.

टीप २.-- निलंबनाधीन असलेला विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी विद्यमान वेतनश्रेणीमध्येच निर्वाह भत्ता आहरित करील आणि सुधारित वेतन संरचनेतील त्याचे वेतन, त्याच्या विरुद्ध सुरु असलेल्या शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीवरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहील.

टीप ३.-- जेव्हा, कायम पद धारण करणारा विद्यापीठीय अथवा महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचारी नियमितपणे वरच्या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत असेल आणि या दोन्ही पदांना लागू असलेल्या श्रेणी एकाच वेतन संरचनेत विलीन झाल्या असतील तेव्हा या पोटनियमानुसार केवळ स्थानापन्न पदाच्या संदर्भात वेतन निश्चित केले जाईल आणि असे निश्चित केलेले वेतन कायम वेतन म्हणून मानले जाईल.

बेगवेगळ्या विद्यमान श्रेणीना एकच सुधारित वेतन संरचना लागू असलेली पदे स्थानापन्न नात्याने धारण करणाऱ्या शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना, या टीपेच्या तरतुदी योग्य त्या फेरफारांसह लागू होतील.

टीप ४.-- जेव्हा, विद्यापीठीय अथवा महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यांच्या विद्यमान वित्तलब्धी सुधारित वित्तलब्धीपेक्षा अधिक होत असतील, तेव्हा फरकाची रक्कम वैयक्तिक वेतन म्हणून दिली जाईल आणि ती वेतनातील पुढील वाढीमध्ये सामावून घेतली जाईल.

टीप ५.-- पोटनियम (१) अन्वये वेतन निश्चित करताना, जो विद्यापीठीय अथवा महाविद्यालयीन कर्मचारी, १ जानेवारी, २००६ च्या लगतपूर्वी त्याच संवर्गातील आपल्या कनिष्ठ विद्यापीठीय अथवा महाविद्यालयीन

कर्मचाऱ्यापेक्षा विद्यमान श्रेणीत जास्त वेतन घेत होता, त्याचे वेतन सुधारित वेतन संरचनेत अशा कनिष्ठ कर्मचाऱ्याच्या वेतनापेक्षा कमी वेतनावर निश्चित होत असेल, तर त्या बाबतीत त्याचे वेतन कनिष्ठ कर्मचाऱ्याच्या वेतनापर्यंत वाढविण्यात येईल.

टीप ६.-- ज्या विद्यापीठीय अथवा महाविद्यालयीन कर्मचाऱ्यास १ जानेवारी, २००६ रोजी वैयक्तिक वेतन मिळत असेल, त्या कर्मचाऱ्याबाबत त्याच्या वैयक्तिक वेतनासहीत विद्यमान वित्तलब्धी सुधारित वित्तलब्धीपेक्षा अधिक होत असतील, तर अशी फरकाची जादा रक्कम त्या संबंधित कर्मचाऱ्यास वैयक्तिक वेतन म्हणून देण्यात येईल आणि ती वेतनातील पुढील वाढीत सामावून घेतली जाईल.

टीप ७.--- १ जानेवारी, २००६ पूर्वी वरच्या पदावर बढती दिलेला विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील वरिष्ठ कर्मचारी सुधारित वेतन संरचनेत, १ जानेवारी, २००६ रोजी किंवा त्यानंतर वरच्या पदावर बढती मिळालेल्या त्याच्या कनिष्ठाहून कमी वेतन घेत असेल, तेव्हा अशा प्रकरणी विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील वरिष्ठ कर्मचाऱ्याचे वेतन त्याच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्याच्या सुधारित वेतन बँडमध्ये निश्चित केलेल्या वेतनाच्या रकमेइतके वाढविण्यात यावे. ही बाब कनिष्ठ कर्मचाऱ्याच्या बढतीच्या तारखेपासून लागू करण्यात यावी; मात्र त्यासाठी पुढील शर्ती पूर्ण कराव्या लागतील :-

(अ) कनिष्ठ व वरिष्ठ विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचारी हे दोघेही एकाच संवर्गातील असावेत आणि ज्या पदांवर त्यांना बढती देण्यात आली असेल, ती पदे त्याच संवर्गात समरूप असावीत;

(ब) ज्या खालच्या व वरच्या पदांवर वेतन मिळण्यास ते पात्र असतील, त्या पदाच्या सुधारणापूर्व वेतनश्रेणी व सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन बँड व ग्रेड वेतन समरूप असावेत;

(क) विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील वरिष्ठ कर्मचारी बढतीच्या वेळी विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कनिष्ठ कर्मचाऱ्याइतके किंवा त्यापेक्षा अधिक वेतन आहरित करीत असला पाहिजे;

(ड) अशा बढतीनंतर सुधारित वेतनसंरचनेमध्ये वेतन विनियमित करण्यास लागू होणाऱ्या महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठीय व संलग्नित महाविद्यालये प्रमाणसंहिता (शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व शर्ती) नियम, १९८४ मधील तरतुदी किंवा कोणताही दुसरा नियम किंवा आदेश यांचा प्रत्यक्ष परिणाम म्हणून अशी विसंगती उद्भवलेली असावी, जर कनिष्ठ कर्मचारी खालच्या पदावर सुधारणापूर्व श्रेणीमध्ये त्याला दिलेल्या आगाऊ वेतनवाढीमुळे वरिष्ठ कर्मचाऱ्यापेक्षा अधिक वेतन घेत असेल, तर वरिष्ठ कर्मचाऱ्याचे वेतन वाढविण्यासाठी या टीपेच्या तरतुदींचा आधार घेता येणार नाही.

(२) पोटनियम (१) अन्वये स्थानापन्न पदाचे निश्चित केलेले वेतन कायम पदाच्या निश्चित केलेल्या वेतनाहून कमी असल्यास, नियम ५ च्या तरतुदींच्या अधीन राहून स्थानापन्न पदाचे वेतन कायम पदाच्या वेतन टप्प्याइतक्या वेतनावर निश्चित करण्यात येईल.

८. दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतन संरचनेत वेतन नियुक्तीती-- दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी किंवा त्यानंतर नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत नवीन नियुक्तीच्या वेळेचे वेतन बँडमधील प्रारंभिक वेतन अनुज्ञेय ग्रेड वेतनासह या नियमातील जोडपत्र-३ मध्ये (इंग्रजी भाषांतरासोबत) दर्शविल्यानुसार राहील.

ही तरतूद दि.१ जानेवारी, २००६ आणि ही अधिसूचना निर्गमित झाल्याच्या दिनांकादरम्यान नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही लागू राहील. अशा प्रकरणी सुधारणापूर्व वेतनश्रेणीतील वित्तलब्धी सुधारित वेतन संरचनेनुसार निश्चित होणारे वेतन आणि त्यावरील महागाई भत्यापेक्षा अधिक असेल, तर त्या फरकाची रक्कम वैयक्तिक वेतन म्हणून दिली जाईल आणि ती वेतनातील पुढील वाढीमध्ये सामावून घेतली जाईल.

९. सुधारित वेतन संरचनेमध्ये वेतनवाढीचा दर.-- सुधारित वेतन संरचनेत वेतन बँडमधील वेतन व ग्रेड वेतनावर ३ टक्के दराने वेतनवाढ देय राहील; ही रक्कम पुढील दहाच्या पटीत घेण्यात यावी. ह्या वेतनवाढीची रक्कम वेतन बँडमधील विद्यमान वेतनात मिळविण्यात येईल.

**१०. सुधारित वेतन संरचनेमध्ये पुढील वेतनवाढीचा दिनांक.**--- सर्व कर्मचाऱ्यांना दरवर्षी दिनांक १ जुलै या एकाच दिनांकास वार्षिक वेतन वाढ मंजूर करण्यात येईल. दिनांक १ जुलै रोजी ज्या कर्मचाऱ्यांची सुधारित वेतन संरचनेमध्ये ६ महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक सेवा पूर्ण होईल, ते कर्मचारी दिनांक १ जुलै रोजी वेतनवाढ मिळण्यास पात्र राहतील. सुधारित वेतन संरचनेत दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी वेतन निश्चिती केल्यानंतर पहिली वेतनवाढ दिनांक १ जुलै, २००६ रोजी देय होईल. ज्या कर्मचाऱ्यांना दिनांक २ जानेवारी, २००५ ते दिनांक १ जानेवारी, २००६ या कालावधीत विद्यमान वेतनश्रेणीत वेतनवाढ मिळाली आहे, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जुलै, २००६ रोजी पुढील वेतनवाढ देय राहील.

आणखी असे की, ज्या कर्मचाऱ्यांना विद्यमान वेतनश्रेणीत दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी वेतनवाढ देय आहे, अशा कर्मचाऱ्यांना दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी विद्यमान वेतनश्रेणीत वेतनवाढ देऊन या नियमांनुसार सुधारित वेतन संरचनेत वेतन निश्चिती करण्यात येईल. अशा प्रकरणी पुढील वेतनवाढ दिनांक १ जुलै, २००६ रोजी देय होईल;

आणखी असे की, जे कर्मचारी विद्यमान वेतनश्रेणीतील कमाल वेतन दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक कालावधीपर्यंत घेत आहेत; त्यांच्याबाबत सुधारित वेतन संरचनेत दि.१ जानेवारी, २००६ रोजी पुढील वेतनवाढ देय होईल. त्यानंतर नियम १० मधील तरतुदी लागू राहतील.

आणखी पुन्हा असे की, सुधारित वेतन बँडमध्ये कमाल टप्प्यावर एक वर्ष वेतन घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यास लगतचा उच्च वेतन बँड मंजूर करण्यात यावा. हा वेतन बँड मंजूर करताना त्याला एक वेतनवाढीचा फायदा देण्यात यावा. त्यानंतर संबंधित कर्मचारी पीबी-४ वेतन बँडमधील कमाल टप्प्यावर पोहोचेपर्यंत त्याला अशा प्रकारे लगतचा उच्च वेतन बँड मंजूर करण्यात यावा. त्यानंतर त्यास वेतनवाढीचा फायदा अनुज्ञेय राहणार नाही.

**टीप.**--- दोन विद्यमान श्रेणीपैकी एक बढतीची श्रेणी असून या दोन्ही श्रेणी विलीन झाल्या असतील आणि खालच्या श्रेणीत निम्न अथवा समान वेतन घेणारा कनिष्ठ विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी सुधारित वेतन संरचनेमुळे विद्यमान वरच्या श्रेणीतील वरिष्ठ विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याच्या वेतनापेक्षा अधिक वेतन घेत असेल, अशा बाबतीत वरिष्ठ विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचाऱ्याचे सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन त्याच्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्याच्या वेतनापर्यंत त्याच दिनांकापासून वाढविण्यात येईल आणि नियम १० अनुसार त्याला पुढील वेतनवाढ मिळेल.

**११. वेतन निश्चितीची जबाबदारी व पद्धत.**- या अधिसूचनेव्ये लागू करण्यात आलेल्या सुधारित वेतन श्रेणीमध्ये खालीलप्रमाणे वेतन निश्चिती करण्याची संपूर्ण जबाबदारी विद्यापीठाची असेल.

- (i) विद्यापीठामधील शिक्षकेतर कर्मचारी/अधिकाऱ्यांच्या वेतन निश्चितीबाबतची जबाबदारी संबंधित विद्यापीठाची राहील.
- (ii) अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील कर्मचारी/अधिकारी यांच्या वेतननिश्चितीची जबाबदारी संबंधित महाविद्यालयांचे प्राचार्य व संबंधित विद्यापीठाची राहील.
- (iii) संबंधित महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांनी वेतननिश्चितीबाबत कार्यवाही करून आवश्यक तो प्रस्ताव संबंधित विद्यापीठाकडे सादर करावा.
- (iv) विद्यापीठाने अशा प्रस्तावाची आवश्यक ती छाननी करून वेतन निश्चिती प्रमाणित करावी.
- (v) वेतन निश्चिती करताना संबंधित विद्यापीठाने खालील बाबींचे प्रमाणपत्र द्यावे.
  - (a) प्रत्येक कर्मचाऱ्याची/अधिकाऱ्याची वेतन निश्चिती योग्य रितीने करण्यात आलेली आहे.
  - (b) चुकीच्या वेतन निश्चितीमुळे कोणतेही अतिप्रदान झाल्यास जेवढ्या रकमेचे अतिप्रदान होईल तेवढ्या रकमेची वसुली संबंधित विद्यापीठ/महाविद्यालयांकडून दंड स्वरूपात वसूल करण्यात येईल.
- (vi) संबंधित विद्यापीठ वरील प्रमाणपत्र व वेतननिश्चितीबाबतची संपूर्ण माहिती विहित नमुन्यात संबंधित सहसंचालक यांच्याकडे सादर करतील. त्यानंतर संबंधित सहसंचालक वेतन निश्चिती योग्य झाल्याची खातरजमा करून आवश्यक तो निधी वितरित करतील.

**१२. दिनांक १ जानेवारी, २००६ च्या नंतर सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन निश्चिती.-** जो विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील शिक्षकेतर कर्मचारी वार्षिक वेतनवाढ घेतो आणि जो दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी त्याने धारण केलेल्या पदाबाबत दिनांक १ जानेवारी, २००६ नंतर त्याच्या पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकापासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड करतो, त्याची त्या दिनांकास सुधारित वेतन संरचनेतील वेतन निश्चिती खालीलप्रमाणे करण्यात येईल :-

वेतन निश्चितीच्या दिनांकास विद्यमान वेतनश्रेणी अनुज्ञेय मूळ वेतनात महागाई वेतन व दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी विद्यमान वेतनश्रेणीस लागू असलेला महागाई भत्ता मिळवून परिगणित करण्यात यावे. ही रक्कम पुढील दहाच्या पटीत घेऊन येणारी रक्कम सुधारित वेतन संरचनेतील अनुज्ञेय वेतन बँड मधील मूळ वेतन होईल. याव्यतिरिक्त, विद्यमान वेतनश्रेणीस अनुज्ञेय समुचित ग्रेड वेतन देय होईल. विशेष वेतन घेणा-या कर्मचाऱ्यांबाबत यथास्थिती नियम ७(१) (ब) किंवा (क) मधील पद्धत अनुसरण्यात येईल; मात्र वेतन निश्चितीसाठी विचारात घेण्यात येणारे मूळ वेतन व महागाई वेतन हे वेतन निश्चितीच्या दिनांकास अनुज्ञेय असलेले मूळ वेतन व महागाई वेतन असेल आणि महागाई भत्ता दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी अनुज्ञेय असलेल्या दरानुसार परिगणित करण्यात येईल.

**१३. दिनांक १ जानेवारी, २००६ या दिनांकापूर्वी धारण केलेल्या पदावर त्या दिनांकानंतर पुनर्नियुक्ती झाल्यावर वेतन निश्चिती.-** ज्या शासकीय कर्मचा-याने दिनांक १ जानेवारी, २००६ पूर्वी एखाद्या पदावर स्थानापन्न म्हणून काम केले असेल; पण त्या दिनांकास ते पद धारण करीत नसेल आणि जो त्या पदावर नंतर नेमणूक झाल्यावर सुधारित वेतन संरचनेत वेतन घेत असेल, त्या कर्मचा-यास महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठीय व संलग्नित महाविद्यालये प्रमाणसंहिता (शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व शर्ती) नियम, १९८४ मधील नियमांप्रमाणे लाभ देण्यात येईल. हा लाभ दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी त्याने पद धारण केले असते आणि त्या दिनांकापासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड केली असती, तर अनुज्ञेय होणाऱ्या लाभाच्या मर्यादेइतका असेल.

**१४. दिनांक १ जानेवारी, २००६ रोजी किंवा त्यानंतरच्या पदोन्नतीच्या अनुषंगाने वेतन निश्चिती.-**

(अ) सुधारित वेतन संरचनेत एका ग्रेड वेतनातून दुस-या ग्रेड वेतनात पदोन्नती मिळालेल्या प्रकरणी खालीलप्रमाणे वेतन निश्चिती करण्यात येईल:-

वेतन बँड मधील वेतन अधिक ग्रेड वेतनाच्या ३ टक्के वाढ देऊन येणारी रक्कम पुढील दहाच्या पटीत घेण्यात यावी. ही रक्कम वेतन बँडमधील विद्यमान वेतनात मिळविण्यात यावी. हा वेतनावर पदोन्नतीच्या पदास लागू असलेले ग्रेड वेतन मंजूर करण्यात यावे. पदोन्नतीनंतर वेतन बँड बदलत असलेल्या प्रकरणीही वरीलप्रमाणे वेतन निश्चिती करण्यात येईल; तथापि वरीलप्रमाणे वेतनवाढ मिळवूनही पदोन्नतीच्या पदावरील वेतन, पदोन्नतीच्या पदाच्या वेतन बँड मधील किमान वेतनापेक्षा कमी असल्यास त्या वेतन बँड मधील किमान वेतन हे संबंधित कर्मचा-यांचे पदोन्नतीनंतरचे वेतन होईल.

(ब) एका श्रेणीतून दुस-या श्रेणीत पदोन्नती मिळालेल्या विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचा-यांस पदोन्नतीच्या दिनांकापासून अथवा त्याच्या पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकास म्हणजे त्या वर्षातील १ जुलै रोजी वेतन निश्चिती करण्याचा विकल्प देण्याची तरतूद महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठीय व संलग्नित महाविद्यालये प्रमाणसंहिता (शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व शर्ती) नियम, १९८४ मध्ये आहे, अशा प्रकरणी खालीलप्रमाणे वेतन निश्चिती करण्यात येईल:-

(१) पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकास वेतन निश्चिती करण्याचा विकल्प दिलेल्या विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्याबाबत पदोन्नतीच्या दिनांकास त्याच्या वेतन बँडमध्ये बदल होणार नाही; मात्र त्यास पदोन्नतीच्या पदाचे ग्रेड वेतन मंजूर करण्यात यावे. त्यानंतर पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकास म्हणजे दिनांक १ जुलै रोजी त्याची पुनर्वेतन निश्चिती करण्यात यावे. त्या दिवशी त्यास प्रथम वार्षिक वेतनवाढ आणि दुसरी पदोन्नतीची वेतनवाढ अशा दोन वेतनवाढी देण्यात याव्यात. या वेतनवाढी परिगणित करताना पदोन्नतीपूर्वी मिळत असलेले मूळ वेतन विचारात घेण्यात यावे.

(२) पदोन्नतीच्या दिनांकास वेतन निश्चिती करण्याचा विकल्प दिलेल्या विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचाऱ्यांबाबत तो जर २ जुलै ते १ जानेवारी या कालावधीत पदोन्नत झाला असल्यास, त्या वरिष्ठ श्रेणीमध्ये पहिली वेतनवाढ पुढील १ जुलै रोजी देण्यात यावी; परंतु तो जर संबंधित वर्षाच्या २ जानेवारी ते ३० जुलै दरम्यान पदोन्नत झाला असल्यास, त्यास पुढील वर्षाच्या १ जुलै रोजी वेतनवाढ मिळेल.

#### १५. दिनांक १ जानेवारी २००६ पूर्वी कालबद्ध पदोन्नती अथवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळालेल्या कर्मचा-यांची वेतन निश्चिती.-

(१) दिनांक १ जानेवारी, २००६ पूर्वी कालबद्ध पदोन्नती अथवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर दिनांक १ जानेवारी, २००६ पूर्वी प्रत्यक्ष पदोन्नती मिळाली असेल, अशा कर्मचा-यांची वेतन निश्चिती अनुज्ञेय वेतन बँड व ग्रेड वेतनानुसार यथास्थिती नियम ७ किंवा नियम ११ अनुसार करण्यात यावी.

(२) दिनांक १ जानेवारी, २००६ पूर्वी कालबद्ध पदोन्नती अथवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळाल्यानंतर पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध असूनही प्रत्यक्ष पदोन्नती न मिळालेल्या कर्मचा-यास पदोन्नतीच्या पदाचा वेतन बँण्ड अनुज्ञेय राहील आणि वेतन बँण्ड मधील वेतन निश्चिती यथास्थिती नियम ७ किंवा नियम ११ अनुसार करण्यात यावी. मात्र त्यास कालबद्ध पदोन्नती किंवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळण्यापूर्वीच्या वेतनश्रेणीस अनुज्ञेय ग्रेड वेतन अधिक संबंधित ग्रेड वेतन आणि पदोन्नतीच्या पदाचे ग्रेड वेतन यामधील फरकाच्या ५० टक्के किंवा रुपये १०० यापैकी जे जास्त असेल, ते ग्रेड वेतन अनुज्ञेय राहील. उर्वरित ग्रेड वेतन, अनुज्ञेय असल्यास, प्रत्यक्ष पदोन्नतीच्या वेळेस अनुज्ञेय होईल; मात्र पुन्हा वेतनवाढीचा लाभ अनुज्ञेय होणार नाही.

(३) दिनांक १ जानेवारी, २००६ पूर्वी कालबद्ध पदोन्नती अथवा सेवांतर्गत आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळालेल्या व पदोन्नतीच्या संधी नसलेल्या कर्मचा-यांना या योजनेचा लाभ मिळण्यापूर्वीच्या विद्यमान वेतनश्रेणीस अनुज्ञेय वेतन बँड व ग्रेड वेतन मंजूर करण्यात येईल व त्यांची वेतन निश्चिती यथास्थिती नियम ७ किंवा नियम ११ अनुसार करण्यात यावी, तसेच त्यांना खाली दिल्याप्रमाणे अतिरिक्त ग्रेड वेतनही अनुज्ञेय राहील:-

(अ) उक्त योजनेचा लाभ मिळण्यापूर्वीच्या विद्यमान वेतनश्रेणीस अनुज्ञेय ग्रेड वेतन रुपये २००० पर्यंत असल्यास-अतिरिक्त ग्रेड वेतन रुपये २००,

(ब) उक्त योजनेचा लाभ मिळण्यापूर्वीच्या विद्यमान वेतनश्रेणीस अनुज्ञेय ग्रेड वेतन रुपये २००० पेक्षा जास्त व रुपये ४००० पेक्षा कमी असल्यास-अतिरिक्त ग्रेड वेतन रुपये ३००,

(क) उक्त योजनेचा लाभ मिळण्यापूर्वीच्या विद्यमान वेतनश्रेणीस अनुज्ञेय ग्रेड वेतन रुपये ४००० पेक्षा जास्त व रु. ५००० पेक्षा कमी असल्यास-अतिरिक्त ग्रेड वेतन रु.४००,

(ड) उक्त योजनेचा लाभ मिळण्यापूर्वीच्या विद्यमान वेतनश्रेणीस अनुज्ञेय ग्रेड वेतन रु.५००० पेक्षा जास्त असल्यास-अतिरिक्त ग्रेड वेतन रुपये ५००,

१६. वेतनाची थकबाकी प्रदान करण्याची पद्धती.- या नियमानुसार दिनांक १ जानेवारी, २००६ ते दिनांक ३१ मार्च, २००९ (दोन्ही दिवस धरू ) या कालावधीत विद्यापीठीय व अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयांमधील कर्मचारी वेतनाची थकबाकी मिळण्यास पात्र असल्यास, अशी रक्कम पुढील पाच वर्षांमध्ये समान हप्त्यात भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात यावी. तत्पूर्वी शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: वेपुर-१२०८/प्र.क्र.७२/ सेवा-९ दिनांक ६ ऑक्टोबर, २००८ अन्वये मंजूर केलेल्या अग्रिमाची रक्कम पहिल्या हप्त्यातून समायोजित करून उर्वरित रक्कमच भविष्य निर्वाह निधीमध्ये जमा करण्यात यावी.

१७. नियमांचा अधिभावी परिणाम :- या नियमांमध्ये अन्यथा तरतुद केली असेल, ती खेरीज करून जेथे या नियमानुसार वेतनाचे विनियमन करण्यात आले असेल, त्या प्रकरणांना महाराष्ट्र अकृषी विद्यापीठे व संलग्नित महाविद्यालये प्रमाणसंहिता (शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या सेवा व शर्ती) नियम, १९८४ मधील तरतुदी या नियमांशी विसंगत ठरत असतील, त्या मर्यादेपर्यंत लागू होणार नाहीत.

१८. नियम शिथिल करण्याचा अधिकार :- कोणत्याही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये सर्व किंवा कोणत्याही तरतुदी अकारण त्रासदायक होतील अशी शासनाची खात्री झाली असेल, ते प्रकरण न्याय व रास्त पद्धतीने हाताळण्यासाठी शासनास आवश्यक वाटेल अशा मर्यादेच्या व अशा शर्तीच्या अधीन राहून तो नियम लागू करू

नये किंवा त्या नियमानुसार आवश्यक म्हणून ठरविलेल्या बाबी शिथिल कराव्यात, असा आदेश शासन काढू शकेल.

**१९. निर्वचन :-** या नियमांच्या कोणत्याही तरतुदीच्या निर्वचनासंबंधी कोणताही प्रश्न उपस्थित झाल्यास अशा परिस्थितीत मराठी भाषेच्या अधिसूचनेतील अर्थ ग्राह्य धरण्यात यावा. तथापि, तदनंतरही यामध्ये संदिग्धता उपस्थित झाल्यास वित्त विभागाच्या क्र.वेपुर १२०९/प्र.क्र.२७/सेवा-९, दिनांक २२ एप्रिल, २००९ च्या अधिसूचनेतील अर्थ ग्राह्य धरण्यात यावा.

त्याचप्रमाणे या नियमांच्या अनुषंगाने कोणतीही विसंगती/त्रुटी उद्भवल्यास संचालक, उच्च/तंत्र शिक्षण यांच्यामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाकडे निर्दिष्ट करण्यात याव्यात.

**२०.** ही अधिसूचना वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४२८/सेवा-९, दिनांक २९ ऑगस्ट, २००९ अन्वये त्यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे.

**२१.** ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या [www.maharashtra.gov.in](http://www.maharashtra.gov.in) या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक क्रमांक २००९१००८१९५४४२००१ असा आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या ओदशानुसार व नावाने,

(रा. गो. जाधव)  
शासनाचे उप सचिव

प्रति,

राज्यपाल व कुलपर्तीचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई.

कुलगुरु, सर्व अकृषि विद्यापीठे,

मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव,

उप मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव,

संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (महाविद्यालयांना द्यावयाच्या १२०० जादा प्रतींसह),

संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई,

कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे,

सर्व विभागीय शिक्षण सहसंचालक, उच्च शिक्षण,

सर्व विभागीय सहसंचालक, तंत्र शिक्षण,

महालेखापाल-१ (लेखा विभाग), महाराष्ट्र, मुंबई,

महालेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई,

महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर,

महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर,

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी,

वित्त विभाग, मंत्रालय मुंबई,

मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे खाजगी सचिव,

मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचे स्वीय सहायक,

उच्च व तंत्र शिक्षण विभागातील सर्व कार्यासने,

निवड नस्ती, (विशि-१).

सहपत्र चार  
विकल्पाचा नमुना  
[पाहा नियम ६(१)]

१. (अ) कर्मचा-यांचे नाव \*श्री/श्रीमती/कुमारी -----

(ब) धारण केलेले पद ----- \* कायम/स्थानापन्न

(क) विद्यमान वेतनश्रेणी रूपये -----

(ड) सुधारित वेतन संरचना-वेतन बँड रूपये -----ग्रेड वेतन रूपये -----

(ई) कार्यालयाचे नाव -----

२. मी \*श्री/श्रीमती/कुमारी -----याव्दरे-

\*(१) १ जानेवारी, २००६ पासून सुधारित वेतन संरचनेची निवड करतो/करते.

\*(२) मी धारण करीत असलेल्या पदाची विद्यमान वेतनश्रेणी पुढीलप्रमाणे कार्यरत ठेवण्याची निवड करतो/करते.

\* माझ्या पुढील वेतनवाढीच्या दिनांकापर्यंत.

\* माझे वेतन रूपये -----पर्यंत वाढणा-या नंतरच्या वेतनवाढीच्या दिनांकापर्यंत.

\* मी पद रिक्त करेपर्यंत किंवा विद्यमान वेतनश्रेणीत वेतन घेण्याचे बंद करेपर्यंत.

३. हा विकल्प अंतिम असून, त्यामध्ये या दिनांकानंतर सुधारणा करण्यात येणार नाही.

ठिकाण : सही

दिनांक : नाव -----

(केवळ कार्यालयाने भरावयाचे)

प्रमाणित करण्यात येते की, \* कायम/स्थानापन्न पद धारण करीत असलेल्या \*श्री/श्रीमती/कुमारी -----

----- यांनी हा विकल्प यथोचितरित्या स्वाक्षरीसह व विहित दिनांकापूर्वी मला सादर केला आहे.

ठिकाण : सही

दिनांक : नाव-----  
कार्यालय प्रमुख-----

\*लागू नसेल ते खोडावे.

(Accompaniment to the government Notification, Higher & Technical Education Department,  
Mantralaya  
No. NGC 2009/(326/09)-UNI-1, dated the 7<sup>th</sup> October, 2009)

## **ANNEXURE - I**

[See Note below Rule 3 (5) ]

List of existing scales of pay in operation excluding U.G.C. scales

Sr. No	Pay Scale
	Rs.
1	2550 (Fixed) 2550-55-2660-3200
2	2610-60-2910-65-3300-70-4000
3	2650-65-3300-70-4000
4	2750-70-3800-75-4400
5	3050-75-3950-80-4590
6	3200-85-4900
7	4000-100-6000
8	4500-125-7000
9	5000-150-8000
10	5500-175-900
11	6000-175-9850-150-10000
12	6500-200-10500
13	7225-225-11050
14	7450-225-11050
15	7450-225-11500
16	7500-250-12000
17	8000-275-13500
18	9125-275-14075
19	10000-325-15200
20	10650-325-15850
21	12000-375-16500
22	14300-400-18300
23	15100-400-18300
24	16400-450-20000
25	16400-450-20900
26	18400-500-22400
27	22400-525-24500

(Accompaniment to the government Notification, Higher & Technical Education Department,  
Mantralaya

No. . NGC 2009/(326/09)-UNI-1, dated the 7<sup>th</sup> October, 2009)

## **ANNEXURE - II**

[See Note below Rule 3 (10)]

Pay Bands and Grade Pay in Revised Pay Structure

(Amount in Rs.)

Sr. No. 1	Name of Pay Band/Scale 2	Revised Pay Structure Corresponding Band/Scale 3	Corresponding Grade Pay 4
1	-1S	4440-7440	1300
2	-1S	4440-7440	1600
3	-1S	4440-7440	1650
4	PB-1	5200-20200	1800
5	PB-1	5200-20200	1900
6	PB-1	5200-20200	2000
7	PB-1	5200-20200	2400
8	PB-1	5200-20200	2800
9	PB-2	9300-34800	4200
10	PB-2	9300-34800	4300
11	PB-2	9300-34800	4400
12	PB-2	9300-34800	4600
13	PB-2	9300-34800	4800
14-A	PB-2	9300-34800	5400
14-B	PB-3	15600-39100	5400
15	PB-3	15600-39100	6600
16	PB-3	15600-39100	6900
17	PB-3	15600-39100	7600
18	PB-4	37400-67000	8700
19	PB-4	37400-67000	8700
20	PB-4	37400-67000	8900
21	PB-4	37400-67000	8900
22	PB-4	37400-67000	10000
23	PB-4	37400-67000	12000

(Accompaniment to the government Notification, Higher & Technical Education Department, Mantralaya No. . NGC 2009/(326/09)-UNI-1, dated the 7<sup>th</sup> October, 2009)

**ANNEXURE - III**  
(See Rule 8)

**Entry Pay in the revised pay structure for direct recruits appointed on or after 1.1.2006**

**(1)Rs.4440-7440(-1S)**

Sr.No.	Grade Pay	Pay in the pay band	Total (Rs.)
1	1300	4440	5740
2	1400	4440	5840
3	1600	4840	6440
4	1650	4920	6570
5	1700	4920	6620

**(2) Rs.5200-20200 (PB -1)**

**(3) Rs.9300-34800 (PB -**

**2)**

Sr.No.	Grade Pay	Pay in the pay band	Total (Rs.)
1	1800	5200	7000
2	1900	5830	7730
3	2000	6460	8460
4	2400	7510	9910
5	2500	7770	10270
6	2800	8560	11360
7	2900	8620	11520
8	3000	8680	11680
9	3500	8920	12420

Sr.No.	Grade Pay	Pay in the pay band	Total (Rs.)
1	4200	9300	13500
2	4300	10100	14400
3	4400	10900	15300
4	4500	11700	16200
5	4600	12540	17140
6	4800	13350	18150
7	4900	13530	18430
8	5000	13710	18710
9	5400	14450	19850

**(4) Rs.15600-39100 (PB -3)**

Sr.No.	Grade Pay	Pay in the pay band	Total (Rs.)
1	5000	15600	20600
2	5400	15600	21000
3	5500	15870	21370
4	5700	16390	22090
5	5800	16660	22460
6	6600	18750	25350
7	6900	19700	26600
8	7600	21900	29500
9	7900	22850	30750

**(5) Rs.37400-67000 (PB -4)**

Sr.No.	Grade Pay	Pay in the pay band	Total (Rs.)
1	8700	37400	46100
2	8800	38800	47600
3	8900	40200	49100
4	10000	43000	53000
5	12000	47100	59100

(Accompaniment to the government Notification, Higher & Technical Education Department,

Mantralaya

No. . NGC 2009/(326/09)-UNI-1, dated the 7<sup>th</sup> October, 2009)

**ANNEXURE – IV**

[See Rule 6(1)]

**FORM OF OPTION**

1. (A) Name of the Employee\*Mr.Mrs/Kum. \_\_\_\_\_
- (B) Post held \_\_\_\_\_ \*Substantive/Officiating
- (C) Existing pay scale, Rs. \_\_\_\_\_
- (D) Revised pay structure –Pay Band Rs. \_\_\_\_\_ Grade Pay Rs. \_\_\_\_\_
- (E) Name of the office in which employed
2. I, Mr./Mrs./Kum. \_\_\_\_\_ hereby :-  
\*(I) elect the revised pay structure of the post with effect from 1<sup>st</sup> day of January, 2006;  
\*(II) elect to retain the existing scale of the post until -----
  - \* the date of my next increment.
  - \* the date of my subsequent increment rising my pay to Rs. \_\_\_\_\_
  - \* I vacate the post or cease to draw pay in the existing scale.
3. The Option hereby exercised is final and will not be modified at any subsequent date.

Place :

Signature

Date :

Name \_\_\_\_\_

**( To be filled by office only )**

This is to certify that, Mr./Mrs./Kum. \_\_\_\_\_

Holder of the post of \_\_\_\_\_ in \* substantive / officiating capacity, has submitted this option from duly signed and within prescribed date, to me.

Place :

Signature

Date :

Name \_\_\_\_\_

Head of the Office \_\_\_\_\_

\* To be scored out if not applicable.

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
Rs.		Rs.		Rs.	
१.	पीठासीन अधिकारी/ Presiding Officer	उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे	उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे	उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे	
२.	संचालक, महाविद्यालये व विद्यापीठ विकास मंडळ/ Director, Board of Colleges & University Development	१६४००-२२४००	३७४००-६७०००	८९००	
३.	कुलसचिव/Registrar	१६४००-२२४००	३७४००-६७०००	८९००	
४.	परीक्षा नियंत्रक Controller of Examination	(i) १६४००-२२४०० (For All Non- Agriculture Univ. except Lonere)	(i) ३७४००-६७००० (For All Non- Agriculture Univ. except Lonere)	(i) ८९००	
		(ii) १०६५०-१५८५० (For Dr.B.A.T. University,Lonere.)	(ii) १५६००-३९१०० (For Dr.B.A.T. University,Lonere.)	(ii) ६६००	
५.	वित्त व लेखा अधिकारी/ Finance & Accounts Officer	१६४००-२२४००	३७४००-६७०००	८९००	
६.	संचालक, नियोजन व विकास मंडळ / Director, Board of Planning & Development	१६४००-२२४००	३७४००-६७०००	८९००	
७.	संचालक, प्रौढ व निरंतर शिक्षण आणि विस्तार सेवा/ Director, Adult & Continuing Education & Extension Services	१६४००-२२४००	३७४००-६७०००	८९००	
८.	संचालक, विद्यार्थी कल्याण / Director, Students Welfare	१०६५०-१५८५०	१५६००-३९१००	६६००	
९.	संचालक, उपकेंद्र (लातूर)/ Director, Sub-Centre (Latur)	१६४००-२२४००	३७४००-६७०००	८९००	
१०.	विशेष कार्य अधिकारी/ Officer on Special Duty	१४३००-१८३००	३७४००-६७०००	८७००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
११.	उपवित्त व लेखा अधिकारी/ Deputy Finance & Accounts Officer	१२०००-१८३००	१५६००-३९१००	७६००	
१२.	संगणक केंद्रप्रमुख/In-charge Computer Centre.	१२०००-१८३००	१५६००-३९१००	७६००	
१३.	वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (तांत्रिक अधिकारी-२) Senior Scientific Officer (Technical Officer -२)	१२०००-१८३००	१५६००-३९१००	७६००	
१४.	सहायक संचालक, प्रौढ व निरंतर शिक्षण/Assistant Director, Adult and Continuing	१२०००-१८३००	१५६००-३९१००	७६००	
१५.	उप कुलसचिव Deputy Registrar	(i)१२०००-१८३०० ( For recruited through direct selection & holding qualifications as per UGC norms) (ii)१०६५०-१५८५० (For others)	(i)१५६००-३९१०० ( For recruited through direct selection & holding qualifications as per UGC norms) (ii)१५६००-३९१०० (For others)	(i)७६००  (ii) ६६००	
१६.	कार्यकारी अभियंता / Executive Engineer	१२०००-१८३००	१५६००-३९१००	७६००	
१७.	विकास अधिकारी/ Development Officer	१०६५०-१५८५०	१५६००-३९१००	६६००	
१८.	वरिष्ठ कायदा अधिकारी / Senior Law Officer	१०६५०-१५८५०	१५६००-३९१००	६६००	
१९.	अंतर्गत हिशोब तपासणीस / Internal Auditor	१०६५०-१५८५०	१५६००-३९१००	६६००	
२०.	वित्त अधिकारी/उप वित्त अधिकारी/Finance Officer/ Deputy Finance Officer	१०६५०-१५८५०	१५६००-३९१००	६६००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विज्ञि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
२१.	जनसंपर्क अधिकारी/Public Relations Officer	(i) १०६५०-१५८५० ( For Amarawati, Jalgaon,Mumbai, Pune Universities)	(i) १५६००-३९१०० ( For Amarawati, Jalgaon,Mumbai, Pune Universities)	(i) ६६००	
		(ii) ८०००-१३५०० (for Aurangabad Univ)	(ii) १५६००-३९१०० (for Aurangabad Univ)	(ii) ५४००	
		(iii) ६५००-१०५०० ( For K.K.K.S University,Ramtek)	(iii) ९३००-३४८०० ( For K.K.K.S University,Ramtek)	(iii) ४४००	
२२.	विद्यार्थ्याचा अधिष्ठाता/ Dean of Students	१०६५०-१५८५०	१५६००-३९१००	६६००	
२३.	संचालक,शारीरिक शिक्षण / क्रीडा संचालक/ Director, Physical Education / Director of Sports	१०६५०-१५८५०	१५६००-३९१००	६६००	
२४.	पद्धती विश्लेषक/यंत्रणा विश्लेषक/System Analyst	१०६५०-१५८५०	१५६००-३९१००	६६००	
२५.	विद्यापीठ अभियंता/ University Engineer	१०६५०-१५२००	१५६००-३९१००	६६००	
२६.	मुख्य लेखापाल/प्रमुख लेखापाल/Chief Accountant	१००००-१५२००	१५६००-३९१००	६६००	
२७.	मुख्य स्थावर व्यवस्थापक/ व्यवस्थापक/Chief Estate Manager/ Manager	१००००-१५२००	१५६००-३९१००	६६००	
२८.	कार्यक्रम समन्वयक (रा.से.यो.) / Programme Co- ordinator(NSS)	१००००-१५२००	१५६००-३९१००	६६००	
२९.	संचालक,बहिःशाल विभाग / संचालक,बहिःशाल शिक्षण मंडळ / Director of Extra Mural Studies/ Director, Board of Extra Mural Studies	१००००-१५२००	१५६००-३९१००	६६००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
३०.	पद्धती अभियंता / System Engineer	१००००-१५२००	१५६००-३९१००	६६००	
३१.	आस्थापना अधिकारी/ Personnel Officer	१००००-१५२००	१५६००-३९१००	६६००	
३२.	सहायक कुलसचिव (ब.श्र.- लोणे)/Assistant Registrar (For Sr. grade-Lonere)	१००००-१५२००	१५६००-३९१००	६६००	
३३.	सहायक कुलसचिव (क.श्र.- लोणे)/Assistant Registrar (For Jr. grade- Lonere)	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
३४.	सहायक कुलसचिव / सहायक कुलसचिव (लेखा)/ सहायक कुलसचिव लेखापरीक्षा)/ Assistant Registrar/ Assistant Registrar (Audit / Accounts)	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
३५.	सहायक लेखा अधिकारी / सहायक वित्त अधिकारी /लेखा अधिकारी Assistant Accounts Officer/ Assistant Finance Officer/ Accounts Officer	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
३६.	सहायक संचालक,शारीरिक शिक्षण / सहायक क्रोडा संचालक/ Assistant Director, Physical Education Assistant Director of Sports	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
३७.	प्रशासकीय अधिकारी/ Administrative Officer	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
३८.	कुलगुरुंचे कार्यकारी सहायक/ Executive Assistant to Vice-Chancellor	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विज्ञि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.		Rs.	Rs.
३९.	विद्यार्थ्यांचा सहायक अधिष्ठाता/प्रकल्प अधिकारी, प्रौढ व निरंतर शिक्षण/ / Assistant Dean of Students / Project Officer, Adult and Contuning Education	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
४०.	वैद्यकीय अधिकारी / आरोग्य अधिकारी / स्वास्थ अधिकारी / महिला आरोग्य अधिकारी / Medical Officer / Lady Medical Officer	(i) ८०००-१३५०० (For M.B.B.S.)  (ii) ६५००-१०५०० (For Others)	(i) ९३००-३४८०० (For M.B.B.S.)  (ii) ९३००-३४८०० (For Others)	(i) ५४०० (For M.B.B.S.)  (ii) ४४०० (For Others)	
४१.	सहायक निवासी अभियंता/ उप अभियंता / उप अभियंता (सिळ्हील )/ उपअभियंता (विद्युत)/ Assistant Residential Engineer Deputy Engineer / Deputy Engineer (Civil) / Deputy Engineer (Electrical)	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
४२.	मेन्टेनेन्स इंजिनिअर / अभियंता/विद्यापीठ अभियंता (लोणेरे)/ Maintenance Engineer/ Engineer/ University Engineer (Lonere)	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विभा-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
४३.	पूर्वलेखक/कार्यक्रमकर्ता/ कार्यक्रम संयोजक/प्रोग्रामर (संगणक)/यंत्रणा विश्लेषक (श्रेणी-२) / सिस्टिम अँनालिस्ट (लोणे) सिनियर प्रोग्रामर / सिस्टिम एक्सपर्ट/ Programmer/ Programmer(Computer) / System Analyst (Grade २)/ System Analyst (Lonere) / Senior Programmer (Nanded)/ System Expert(Nanded)	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
४४.	माहिती शास्त्रज्ञ/ /इन्फॉर्मेशन सायंटिस्ट(बायोइन्फर्मेटिक्स) /Information Scientist / Information Scientist (Bio-Informatics)	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
४५.	ज्युनियर इन्फॉर्मेशन सायंटिस्ट- ग्रेड-१ (बायोइन्फर्मेटिक्स) / ज्युनियर इन्फॉर्मेशन सायंटिस्ट- ग्रेड-२/ Junior Information Scientist -Grade-1-(Bio- Inform.)/ Junior Information Scientist - Grade-2	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
४६.	परिव्ययी (भौतिकशास्त्र) / तांत्रिक अधिकारी (भौतिकशास्त्र)/ Technical Officer (Physics)/ Costists (Physics)	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
४७.	सायंटिफिक ऑफिसर / उपकरण अभियंता / इन्स्ट्रुमेंटेशन इंजिनियर / इलेक्ट्रॉनिक इंजिनिअरिंग	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			Rs.	Rs.	Rs.
	(उपकरणशास्त्र)/ Scientific Officer/ Instrumentation Engineer /Electronic Engineering (Instrumentation)				
४८.	असिस्टेंट अर्काईविस्ट / संशोधन सहयोगी / किपर ऑफ म्युझियम/Assistant Archivist/Research Associates/ Keeper of Museum	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
४९.	कायदा अधिकारी / विधी अधिकारी / Law Officer	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
५०.	कुलगुरुंचे स्वीय सहायक/ Personal Assistant to Vice-Chancellor	८०००-१३५०० (for Aurangabad, Lonere)	९३००-३४८०० (for Aurangabad, Lonere)	५४००	
५१.	तंत्रसहायक (ग्रंथालय) / तंत्रसहायक (ग्रंथालय-संस्कृत) / इन्स्ट्रुमेंटल ऑफिसर (लायब्ररी)/Technical Assistant (Library) / Technical Assistant (Library-Sanskrit)/ Instrumental Officer (Library)	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
५२.	ग्रंथपाल (लोणेरे) / Librarian (Lonere)	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
५३.	गृह व्यवस्थापक/House Manager	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
५४.	वरिष्ठ श्रेणी तंत्रज्ञ(रसायन) / तंत्रसहायक वरिष्ठ श्रेणी (रसायन) / / काचुकुगारी (पुणे)/ कर्मशाळा कार्यदेशक / कार्यदेशक इलेक्ट्रॉनिक्स/	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
	सचिव-नि-तांत्रिक संयोजक / Senior Grade Technician (Chem.)/ Technician Senior Grade (Chemistry)/ Glass Blower(Pune)/ Workshop Foreman/ Foreman Electronics/ Secretary-cum-Technical Co-ordinator)				
५५.	माहिती अधिकारी / Information Officer	८०००-१३५००	९३००-३४८००	५४००	
५६.	सुरक्षा अधिकारी /Security Officer	(i) ८०००-१३५०० (for Lonere, Nanded, Ramtek)	(i) ९३००-३४८०० (for Lonere, Nanded, Ramtek)	(i) ५४००	
		(ii) ७४५०-११५०० (for Aurangabad, Mumbai)	(ii) ९३००-३४८०० (for Aurangabad Mumbai)	(ii) ४६००	
		(iii) ६५००-१०५०० (for Amarawati , Pune)	(iii) ९३००-३४८०० (for Amarawati , Pune)	(iii) ४४००	
		(iv) ५५००-९००० (for SNDT)	(iv) ९३००-३४८०० (for SNDT)	(iv) ४३००	
		(v) ४५००-७००० (for Shivaji Univ. Class-III)	(v) ५२००-२०२०० (for Shivaji Univ. Class-III)	(v) २८००	
५७.	सभागृह व्यवस्थापक/ Hall Manager	७४५०-११५००	९३००-३४८००	४६००	
५८.	लेखापाल/ प्रमुख लेखापाल / Accountant/ Head Accountant	(i) ७४५०-११५०० (for SNDT)	(i) ९३००-३४८०० (for SNDT)	(i) ४६००	
		(ii) ६५००-१०५०० (for Kolhapur, Solapur)	(ii) ९३००-३४८०० (for Kolhapur, Solapur)	(ii) ४४००	
		(iii) ५५००-९००० (For other Universities)	(iii) ९३००-३४८०० (For other Universities)	(iii) ४३००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
५९.	स्वीय सहायक/ स्वीय सहायक (इंग्रजी) / Personal Assistant/ Personal Assistant (English)	i) ७४५०-११५०० ii) ६५००-१०५०० (For Jalgaon)	i) ९३००-३४८०० ii) ९३००-३४८०० (For Jalgaon)	४६०० ४४००	
६०.	संशोधन सहायक (वरिष्ठ)/ संशोधन सहयोगी/ Research Associates / Research Assistant (Senior)	७४५०-११५००	९३००-३४८००	४६००	
६१.	सांख्यिकी विश्लेषक (परीक्षा सुधारक)/Statistical Analyst (Examination Improvement Unit)	७४५०-११५००	९३००-३४८००	४६००	
६२.	प्रशासकीय सचिव (भैतिक शास्त्र)/Administrative Secretary (Physics)	७४५०-११५००	९३००-३४८००	४६००	
६३.	संग्रहालय संग्राहक (अधिकारी) / Keeper of Museum (Curator)	७४५०-११५००	९३००-३४८००	४६००	
६४.	सचिव, विद्यार्थी कल्याण मंडळ/विद्यार्थी कार्य अधिकारी/ सचिव, क्रीडा मंडळ/ Secretary Board of Students Welfare/ Students Affairs Officer/ Secretary, Board of Sports	७४५०-११५००	९३००-३४८००	४६००	
६५.	लघुलेखक (निवडश्रेणी)/ Stenographer (Selection Grade)	७४५०-११५००	९३००-३४८००	४६००	
६६.	कार्यदेशक/फोरमन (जळगाव)/ कार्यदेशक, छंद कर्मशाळा (एल.आय.टी) / Foreman / Foreman, Hobby Work Shop (L.I.T.)	(i) ६५००-१०५०० (for Amarwati, Jalgaon,Nagpur)	(i) ९३००-३४८०० (for Amarwati, Jalgaon,Nagpur)	(i) ४४००	
		(ii) ५५००-९००० (for remaining Universities)	(ii) ९३००-३४८०० (for remaining Universities)	(ii) ४३००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
६७.	कक्ष अधिकारी/कक्ष अधिकारी (लेखा/क्रीडा/ डी.टी.पी.)/ Section Officer/ Section Officer (Accounts/ Sports/ D.T.P.)	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
६८.	प्रबंधक / कार्यालय अधीक्षक/ अधीक्षक/ अधीक्षक (लेखा/ विशेष कक्ष/ वसतिगृह अधीक्षक/ Registrar/ Office Superintendent/ Superintendent / Superintendent (Accounts/Spl. Cell) / Hostel Superintendent	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
६९.	उद्यान अधीक्षक/ गार्डन अधीक्षक/गार्डन सुप्रिटेंडेंट / अधीक्षक (मध्यवर्ती कार्यशाळा) / कर्मशाळा अधीक्षक/पथदर्शी संयंत्र अधीक्षक (आयआयटी) / पायलट प्लॉट अधीक्षक/ Garden Superintendent Superintendent (Central Workshop) Workshop Superintendent/ Pilot Plant Superintendent (IIT)/ Pilot Plant Superintendent	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
७०.	अधीक्षक,(विद्यापीठ माहिती विभाग)/सचिव(युआयबी)/ Superintendent, (University Information Bureau)/ Secretary (UIB)	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
७१.	अधीक्षक,क्रीडा मंडळ/क्रीडा सहायक/अधीक्षक (राखण व पहारा) / Superintendent, Board of Sports/ Sports Assistant /	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
	Superintendent (Watch and Ward)				
७२.	रोखपाल/Cashier	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
७३.	सचिव(एस.डब्ल्यू.) / क्रीडा सचिव/ सचिव, बहिःशाल अभ्यासक्रम (कोल्हापूर) / Secretary (S.W.)/ Sports Secretary Secretary, Extra Mural Studies (Kolhapur)/	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
७४.	बर्सर/Burser	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
७५.	सांख्यिकी/Statistician	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
७६.	कॅमेरामन/Cameraman	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
७७.	भांडार पडताळणी अधिकारी/ भांडारपाल(अमरावती ,मुंबई) / Store Verification Officer /Storekeeper (Amarawati,Mumbai)	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
७८.	लेखापाल/लेखापाल (पदव्युत्तर केंद्र)/उप लेखापाल/ सहायक लेखापाल/ Accountant/ Accountant (P.G. Centre) Deputy Accountant/ Assistant Accountant	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
७९.	प्रक्षेत्र अभियंता / कनिष्ठ अभियंता(स्थापत्य/सिल्वील)/ कनिष्ठ अभियंता/विद्युत अभियंता/उपविद्युत अभियंता/कनिष्ठ अभियंता (विद्युत)/Site Engineer / Junior Engineer/ Junior Engineer(Civil) / Electrical Engineer/ Deputy Electrical	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			Rs.	Rs.	Rs.
८०.	Engineer/ Junior Engineer (Electrical)				
८१.	भांडारपाल (जळगाव ) / ड्राफ्टसूमन(जळगाव,नांदेड) / सर्केअर (जळगाव )/आर्टीस्ट मॉडेलर (जळगाव )/ कनिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ/ Store Keeper ( Jalgaon)/ Draftsman(Jalgaon, Nanded) / Surveyor (Jalgaon) /Artist Modeller (Jalgaon)/ Junior Architect	६५००-१०५०० (for employees in Construction / Estate Dept.)	९३००-३४८०० (for employees in Construction / Estate Dept.)	४४०० (for employees in Construction / Estate Dept.)	
८२.	स्थावर व्यवस्थापक(स्थापत्य/ विद्युत-नि-सर्वसाधारण) मत्ता व्यवस्थापक(स्थापत्य/ विद्युत सर्वसाधारण) मत्ताधिकारी / स्थावर अधिकारी /मालमत्ता अधिकारी/ /Estate Manager (Civil/ Electrical-General)/ Estate Officer	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
८३.	आवेक्षक/ओळहरसिअर स्थावर/ सिहिल ओळहरसिअर(स्थावर)/ Overseer / Overseer (Estate)/ Civil Overseer (Estate)	(i)५५००-९००० (For Kolhapur, Pune Universities)	i)९३००-३४८०० (for Kolhapur, Pune Universities)	(i)४३०० (for Kolhapur, Pune )	
		(ii)६५००-१०५०० ( For Degree holders & After Five years qualifying service for Diploma holders)	(ii)९३००-३४८०० ( For Degree holders & After Five years qualifying service for Diploma holders)	(ii)४४००	
		(ii)४५००-७००० (for others)	(ii)५२००-२०२०० (for others)	(ii)२८०० (for others)	
८३.	वरिष्ठ पृथःकार/Senior Analyst	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
८४.	उपरक्षक (संग्रहालय)/ Deputy Keeper (Museum)	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
८५.	कार्यशाळा पर्यवेक्षक/ Workshop Supervisor	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
८६.	तांत्रिक सहायक(सीआयसी / अभियांत्रिकी) / तांत्रिक सहायक (पदार्थविज्ञान) / Technical Assistant (C.I.C./Engineering)/ Technical Assistant (Physics)	(i)६५००-१०५०० (for Amravati, Mumbai)	(i)९३००-३४८०० (for Amravati, Mumbai)	(i)४४००	
		(ii) ५५००-९००० (for others)	(ii) ९३००-३४८०० (for others)	(ii)४३००	
८७.	उद्यानविद्यावेत्ता/ Horticulturist	(i)६५००-१०५०० (for pre 1978 Employees)	(i)९३००-३४८०० (for pre 1978 Employees)	(i)४४००	
		(ii)५५००-९००० (for others)	(ii)९३००-३४८०० (for others)	(ii)४३००	
८८.	कार्यक्रम समन्वयक/कार्यक्रम अधिकारी/कार्यक्रम संयोजक/Programme Co- ordinator/ Programme Officer/ Programme Organiser	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
८९.	प्रकाशन अधिकारी/ Publication Officer	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
९०.	खरेदी अधिकारी/ Purchase Officer	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
९१.	समन्वयक, विस्तार सेवा विभाग/ Co-Ordinator, Extension Service Department	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
९२.	प्रकल्प अधिकारी / Project Officer	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
१३.	सहायक पूर्वलेखक/असिस्टेंट प्रोग्रामर/हार्डवेअर इंजिनिअर/टेक्निशन (कॅप्स नेटवर्किंग) / Assistant Programmer /Senior Programmer/ Hardware Engineer/ Technician (Campus Networking)	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
१४.	क्ष-किरण शास्त्रज्ञ/ Radiologist	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
१५.	संशोधक सहयोगी/ Research Associates	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
१६.	कुलगुरुंचे खाजगी सचिव/ Private Secretary to Vice-Chancellor	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
१७.	कुलगुरुंचे खाजगी सहायक/ Personnel Assistant to Vice-Chancellor	(i)६५००-१०५०० (for SNDT)	(i)९३००-३४८०० (for SNDT)	(i)४४००	
		(ii) ५५००-९००० (for SNDT)	(ii)९३००-३४८०० (for SNDT)	(ii)४३००	
१८.	वरिष्ठ लघुलेखक/लघुलेखक (उच्च श्रेणी)/उच्चश्रेणी लघुलेखक(इंग्रजी)/ उच्च श्रेणी लघुलेखक (मराठी)/ Senior Stenographer/ Stenographer (Higher Grade)/Higher Stenographer (English)/ Higher Stenographer (Marathi)	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
१९.	दस्त ऐवजकार/ डॉक्युमेंटेशनिस्ट (हिंदी)/ डॉक्युमेंटेशनिस्ट (संस्कृत) Documentationist/ Documentationist (Hindi / Sanskrit)	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
१००.	वरिष्ठ तांत्रिक सहायक/ वरिष्ठ तांत्रिक सहायक (रसायन )/ वरिष्ठ तांत्रिकी/ वरिष्ठ तांत्रिक सहायक (आयसीटी) / वरिष्ठ तांत्रिक सहायक इलेक्ट्रॉनिक्स (युसिक) / तंत्र सहायक (छायाचित्र) / तांत्रिक सहायक (फोटोग्राफ-उमवि,जळगाव) / तांत्रिक सहायक (विद्यापीठीय शैक्षणिक प्रशाळा/विभाग- उमवि,जळगाव, कोल्हापूर, नागपूर)/ Senior Technical Assistant/ Senior Technical Assistant (Chemistry)/ Senior Technical Assistant (ICT,Mumbai)/ Senior Technical Assistant (Electronics U.S.I.C.)/ Technical Assistant (Photograph/ Technical Assistant (Photograph - NMUJalgaon / Technical Assistant (University Schools/ Departments- Kolhapur,Jalgaon,Nagpur)	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
१०१.	वरिष्ठ तंत्रज्ञ /तंत्रज्ञ (सूक्ष्म विश्लेषक रसायनशास्त्र)/ वरिष्ठ तंत्रसहायक(मध्यवर्ती कार्यशाळा)/Senior Technician/ Technician (Micro Analyst Chemistry) / Senior Technical Assistant (Central Workshop)	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
१०२.	निर्देशक (नाटक/ निर्देशक (पत्रकार)/Instructor (Drama)/ Instructor (Journalist)	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
१०३.	परिसेविका पाठ्यनिदेशिका/ Sister Tutor	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
१०४.	लेखा परीक्षक/सहायक लेखा परीक्षक/Auditor/ Assistant Auditor	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१०५.	लेखापाल / सहायक लेखापाल/ कनिष्ठ लेखापाल / सहायक लेखापाल (लोअर ग्रेड)/ Accountant/ Assistant Accountant/Junior Accountant/Assistant Accountant (Lower Grade)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१०६.	कार्यालयीन अधीक्षक(लोणेरे)/ Office Superintendent (Lonere) /	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१०७.	कनिष्ठ कार्यालयीन अधिक्षक/ Junior Office Superintendent	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
१०८.	संशोधन सहायक/संशोधन सहायक (कनिष्ठ) /संशोधन सहायक (राज्यशास्त्र/भूगोल) / Research Assistant/ Research Assistant (Junior) / Research Assistant(Politics)/ Research Assistant (Geography)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१०९.	अन्वेषक / Investigator	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
११०.	निदेशक (जे.बी.आय.) / Instructor (J.B.I.)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१११.	सहायक अधीक्षक/ सहायक अधीक्षक (लेखा)/Assistant Superintendent/ Assistant Superintendent (Accounts)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
११२.	सहायक कक्ष अधिकारी/ सहायक कक्ष अधिकारी (सर्वसाधारण) / सहायक कक्ष अधिकारी (लेखा)/ Assistant Section Officer/ Assistant Section Officer (General)/ Assistant Section Officer (Accounts)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
११३.	मुख्य लिपिक/मुख्य लिपिक-नि- सहायक लेखापाल/कार्य लिपिक/निवडश्रेणी लिपिक/ Head Clerk /Head Clerk- cum-Assistant Accountant/ Clerk of Works/Selection Grade Clerk	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विज्ञि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
Rs.		Rs.		Rs.	
११४.	कार्यालय सहायक / वरिष्ठ सहायक / Office Assistant / Senior Assistant	(i) ५५००-९००० (for Mumbai, NMU,Jalgaon)	१३००-३४८०० (for Mumbai, NMU,Jalgaon)	(i) ४३००	
		ii) ४५००-७००० (for others)	५२००-२०२०० (for others)	(ii) २८००	
११५.	सहायक अधीक्षक(टंकलेखक) / Assistant Superintendent (Typist)	i) ५५००-९००० (for pre १९७८ employees)	i) १३००-३४८०० (for pre 1978 employees)	४३००	
		ii) ४०००-६००० (for others)	५२००-२०२०० (for others)	२४००	
११६.	सहायक रोखपाल / Assistant Cashier	५५००-९०००	१३००-३४८००	४३००	
११७.	सूक्ष्म विश्लेषक/ मायक्रो अॅनालिस्ट (रसायनशास्त्र) Micro Analyst / Micro Analyst (Chemistry)	५५००-९०००	१३००-३४८००	४३००	
११८.	वैज्ञानिक सहायक/ Scientific Assistant	५५००-९०००	१३००-३४८००	४३००	
११९.	गोडाऊन किपर/ Godown keeper	५५००-९०००	१३००-३४८००	४३००	
१२०.	तंत्र सहायक (परीरक्षण) / पर्यवेक्षक (परीरक्षण) / Techincal Assistant (Maintenance)/ Supervisor (Maintenance)	५५००-९०००	१३००-३४८००	४३००	
१२१.	वरिष्ठ भांडारपाल / भांडारपाल/ Senior Storekeeper /Store keeper	(i) ५५००-९००० (for Aurangabad, Kolhapur, Lonere, SNDT, Solapur)	(i) १३००-३४८०० (for Aurangabad, Kolhapur, Lonere, SNDT, Solapur)	(i) ४३००	
		(ii) ४५००-७००० (for remaining Univ.)	(ii) ५२००-२०२०० (for remaining Univ.)	(ii) २८००	
१२२.	सहायक भांडारपाल/ असिस्टेंट स्टोअरकिपर / Assistant Storekeeper	(i) ५५००-९००० (for Jalgaon)	(i) १३००-३४८०० (for Jalgaon)	४३००	
		(ii) ४५००-७००० (for remaining Univ.)	(ii) ५२००-२०२०० (for remaining Univ.)	२८००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
१२३.	भांडार रक्षक/भांडार रक्षक (बायोटेक्नॉलॉजी) / प्रमुख भांडार रक्षक (रसायन) / भांडार रक्षक (रिफेक्टरी) / Store Guard/ Store Keeper (Biotechnology) / Store Guard (Chemistry) / Store Keeper (Refactory)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१२४.	मुख्य भांडार रक्षक (रसायन/भौतिकशास्त्र) / Chief Store Guard (Chemistry/Physics)	i) ५५००-९००० (for pre १९७८ employees)	i) ९३००-३४८०० (for pre १९७८ Employees)	i) ४३००	
		ii) ४५००-७००० (for others)	ii) ५२००-२०२०० (for others)	ii) २८००	
१२५.	मुद्रित शोधक/प्रूफ रिडर / प्रतवाचक/ Proof Reader	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१२६.	तांत्रिक सहायक / कनिष्ठ तांत्रिक सहायक (आयसीटी , मुंबिंबई) /टेक्निकल असिस्टंट(कॉ.प्रो.संख्याशास्त्र /रसायनशास्त्र) / Technical Assistant /Junior Technical Assistant (ICT, / /Mumbai) / Technical Assistant (C.P.- Statastics) / Technical Assistant (Chemistry)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१२७.	कलागार तंत्रज्ञ/Studio Technician	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१२८.	कार्यशाळा निदेशक / कार्यशाळा यांत्रिक(आयसीटी- पदविकाधारक) / कार्यशाळा कार्यदेशक/Workshop	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			Rs.	Rs.	Rs.
	Instrumentor/ Workshop Instructor/ Workshop Mechanic (ICT-DiplomaHolders)/ Workshop Foreman				
१२९.	कनिष्ठ विश्लेषक /कनिष्ठ सूक्ष्म विश्लेषक/ कनिष्ठ विश्लेषक (उपकरण) Junior Analyst/ Junior Micro Analyst/Junior Analyst (Instrument)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१३०.	ध्वनिमुद्रक/साऊंड रेकॉर्डर/ Sound Recorder/ Sound Recordist	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१३१.	नकाशाकार /नकाशा सहायक / नकाशा सहायक (भूगोल)/ Cartographer /Map Assistant/Map Assistant(Geography)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१३२.	वरिष्ठ ग्रंथालय सहायक/ ग्रंथपाल (जेबीआय) /ग्रंथपाल (जे. जे. कला महाविद्यालय) / ग्रंथालय सहायक (१९७८ पूर्वीचे)/ प्रशिक्षित ग्रंथालय सहायक / तांत्रिक सहायक (ग्रंथालय) / सहायक ग्रंथपाल वर्ग-३/ Senior Library Assistant/ Librarian (JBI) / Librarian (J.J. Arts College/Qualified Library Assistant /Technical Assistant (Library) Assistant Librarian (Class-३)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१३३.	डी.टी.पी. ऑपरेटर / D.T.P. Operator	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१३४.	डाटा ऑपरेटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (श्रेणी १ - बायोइन्फॉरमेटिक्स) Data operator/ Data Entry Operator/ Data Entry Operator (Grade I - Bioinformatics)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१३५.	कनिष्ठ तांत्रिक सहायक/ तंत्रज्ञ (कनिष्ठ श्रेणी) /कनिष्ठ तंत्रज्ञ/ तंत्रसहायक /तंत्रक सहायक / वरिष्ठ तांत्रिकी/ Junior Technical Assistant / Technician (Lower Grade)/ Junior Technician/ Technical Assistant/ Senior Technician	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१३६.	क्ष-किरण तंत्रज्ञ / X-Ray Technician	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१३७.	सांख्यिकी/सांख्यिक/संशोधन- नि-सांख्यिकी सहायक/ सांख्यिकी सहायक/ सांख्यिकी सहायक (आरक्षण कक्ष) / Statistician/ Research -cum- Statistical Assistant / Statistical Assistant/ Statistical Assistant (Reservation Unit)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१३८.	हस्तलिखित अधिकारी/ Manuscript Officer	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
१३९.	विद्युत यांत्रिक व संशोधन सहायक/विद्युत पर्यवेक्षक/विद्युत निरीक्षक/Electric Mechanic and Research Assistant/Electrical Supervisor/Electrical Inspector	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१४०.	पर्यवेक्षक बांधकाम /इमारत पर्यवेक्षक/बांधकाम पर्यवेक्षक सहायक अभियंता / अभियंता सहायक /Supervisor Construction / Building Supervisor/ Construction Supervisor/ Assistant Engineer/ Engineer Assistant	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१४१.	मिस्त्री / मिस्त्री (स्थावर)/मिस्त्री-नि-लिपिक/Mistry/ Mistry ((Estate)/ Mistry-cum-Clerk	(i) ५५००-९००० (For Diploma/I.T.I./ Govt.approved Certificate holders in Estate Dept.of Kolhapur,Nagpur, Pune Universities)	(i)९३००-३४८०० (For Diploma/I.T.I./ Govt.approved Certificate holders in Estate Dept.of Kolhapur,Nagpur, Pune Universities)	(i)४३००	
		(ii) ४०००-६००० ( For S.S.C.+ one year Certificate course holders in Estate Dept.of Mumbai,Nagpur, Universities)	(ii) ५२००-२०२०० ( For S.S.C.+ one year Certificate course holders in Estate Dept.of Mumbai,Nagpur, Universities)	(ii) २४००	
		(iii) ३०५०-४५९० <b>(for others)</b>	(iii) ५२००-२०२०० <b>(for others)</b>	(iii) १९००	
१४२.	भाषा प्रयोगशाळा सहायक (इंग्रजी विभाग) /Language Lab Assistant (English Dept.)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
Rs.		Rs.		Rs.	
१४३.	भाषा प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ / Language Lab Technician	(i) ४०००-६००० (for Kolhapur)	(i) ५२००-२०२०० (for Kolhapur )	(i) २४००	
		(ii) ५५००-९००० (For SNDT)	(ii) ९३००-३४८०० ( For SNDT)	(ii) ४३००	
१४४.	प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (मानसशास्त्र)/ प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ/ Laboratory Technician (Psychology) / Laboratory Technician	(i) ५५००-९००० (for Pune, Lonere) (ii) ४५००-७००० (for remaining Univ.)	(i) ९३००-३४८०० (for Pune, Lonere) (ii) ५२००-२०२०० (for remaining Univ.)	(i) ४३०० (ii) २८००	
१४५.	चालक (युएसआयसी)/ Operator (USIC)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१४६.	सहायक सुरक्षा अधिकारी / सुरक्षा अधिकारी /सुरक्षा पर्यवेक्षक/ सुरक्षा सहायक/ Assistant Security Officer / Security Officer/Security Supervisor/Security Assistant	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१४७.	कल्चरिस्ट /कल्चरिस्ट सहायक/Culturist / Culturist Assistant	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१४८.	रंगमंच प्रकाश तज्ज्ञ/Stage Light Expert	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१४९.	डॉक्युमेंटेशन सहायक/ Documentation Assistant	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१५०.	आरेखक(वर्कशॉप)/आरेखक/Dr aftsman (Workshop)/ <b>Draftsman</b>	i) ५५००-९००० (for pre 1978 employees)	i) ९३००-३४८०० (for pre 1978 employees)	४३००	
		ii) ४५००-७००० (for others)	ii) ५२००-२०२०० (for others)	२८००	
		iii) ५०००-८००० (४ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)	iii) ९३००-३४८०० (४ वर्षांच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)	४२००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विज्ञि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEDE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
<b>Rs.</b> <b>Rs.</b> <b>Rs.</b>					
१५१.	एन. आय.एस. खास शिक्षक/ NIS Special Coaches	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१५२.	व्यावसायिक सहायक/ Professional Assistant	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१५३.	पाठनिदेशक-नि-तांत्रिक सहायक(ग्रंथालय)/Tutor- cum-Technical Assistant (Library)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१५४.	लघुलेखक /लघुलेखक (कनिष्ठ श्रेणी)/ कनिष्ठ लघुलेखक / निम्नश्रेणी लघुलेखक(इंग्रजी व मराठी) Stenographer (Lower Grade)/Junior Stenographer/Lower Grade Stenographer (English and Marathi)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१५५.	उपकरण दुरस्तीकार/ उपकरण दुरस्तीकार (पदार्थ विज्ञान/ रसायनशास्त्र)/ Equipment Repairer/ Equipment Repairer (Physics/ Chemistry)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१५६.	सहायक अभिरक्षक (वनस्पती शास्त्र)/Assistant Curator (Botony)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१५७.	रासायनिक विश्लेषक (भूशास्त्र) /मायक्रोअॅनालिस्ट (रसानशास्त्र)/Chemical Analyst (Geology)/ MicroAnalyst (Chemistry)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विज्ञि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
१५८.	कार्यदेशक (भौतिकशास्त्र/ इलेक्ट्रॉनिक्स)/ Foreman (Physics /Electronics)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१५९.	तंत्रज्ञ 'इ'/तंत्रज्ञ 'डी'/तंत्रज्ञ 'सी'/ Technician 'E' Technician 'D'/ Technician 'C' USIC)	(i) ५५००-९००० (for Kolhapur, Nagpur Univ.) (ii) ४५००-७००० ( For remaining all Universities)	(i) ९३००-३४८०० (for Kolhapur, Nagpur Univ.) (ii) ५२००-२०२०० (For remaining all Universities)	(i) ४३०० (ii)२८००	
१६०.	तंत्रसहायक कनिष्ठ श्रेणी (इलेक्ट्रॉनिक्स/ बायोइन्फरमेटिक्स/ बायोटेक्नॉलॉजी/ भूशास्त्र/ रसायन/ संख्याशास्त्र/ग्रंथालय सांख्यिकी-भौतिकशास्त्र)/ Technical Assistant- Lower Grade (Electronics/ Bioinformatics/ Biotechnology/ Geology/ Chemistry/ Statistics/Library Statistics-Physics)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१६१.	सर्वेक्षक (पूरातत्व)/ Surveyor (Archeology)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१६२.	छायाचित्र निदेशक (मध्यवर्ती कार्यशाळा)/छायाचित्र निदेशक/ छायाचित्रकार-नि-कलाकार/ Photography Instructor (Central Workshop)/ Photography Instructor / Photographer- cum- Artist	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	

(શાસન અધિસૂચના ઉચ્ચ વ તત્ત્વ શિક્ષણ વિભાગ ક્રમાંક : સંકીર્ણ ૨૦૦૯/(૩૨૬/૦૯)-વિશ્લેષણ, દિનાંક ૦૭ ઑક્ટોબર, ૨૦૦૯ ચે સહપત્ર) અનુસૂચી/SCHEDULE

અ. ક્ર./ Sr.No.	પદનામ/ Designation	વિદ્યમાન વેતન શ્રેણી વ અસલ્યાસ , વિશેષ વેતન /Existing and Special Pay, if any	સુધરિત વેતન સરચના/ (Revised pay Structure)		અભિપ્રાય/ (Remarks)
			વેતન બંડ / (Pay Band)	ગ્રેડ વેતન / (Grade Pay)	
(૧)	(૨)	(૩)	(૪)	(૫)	(૬)
૧૬૩.	મોડિઝાત (ઇતિહાસ)/ Modiscriber (History)	૫૫૦૦-૧૦૦૦	૧૩૦૦-૩૪૮૦૦	૪૩૦૦	
૧૬૪.	સંપાદકીય સહાયક (તત્વ જ્ઞાન વિભાગ) / Editorial Assistant (Philosophy Department)	૫૫૦૦-૧૦૦૦	૧૩૦૦-૩૪૮૦૦	૪૩૦૦	
૧૬૫.	પ્રતિમાનકાર ચિત્રકાર/ Artist Modeler	i) ૫૫૦૦-૧૦૦૦ (for pre 1978 employees) ii) ૪૫૦૦-૭૦૦૦ (for others)	(i) ૧૩૦૦-૩૪૮૦૦ (for pre 1978 employees) (ii) ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (for others)	૪૩૦૦ ૨૮૦૦	
૧૬૬.	કલાકાર-નિ-પ્રતિમાનકાર (માનવશાસ્ત્ર) / Artist Modular (Anthropology)	૫૫૦૦-૧૦૦૦	૧૩૦૦-૩૪૮૦૦	૪૩૦૦	
૧૬૭.	વિદ્યુત તંત્રજ્ઞ/ Electric Technician	૫૫૦૦-૧૦૦૦	૧૩૦૦-૩૪૮૦૦	૪૩૦૦	
૧૬૮.	ઇલેક્ટ્રોનિક્સ તંત્રજ્ઞ/ તંત્ર સહાયક ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (યુસિક) / તાંત્રિક સહાયક (યુસિક) / Electronics Technician/ Technical Assistant Electronics (USIC) / Technical Assistant (USIC)	૫૫૦૦-૧૦૦૦	૧૩૦૦-૩૪૮૦૦	૪૩૦૦	
૧૬૯.	તાંત્રિક સહાયક (સી.યુ.શાહ કોલેજ ઑફ ફાર્મસી) / Technical Assistant (C.U.Shah College of Pharmacy)	i) ૫૫૦૦-૧૦૦૦ (ફિજીક્સ/ કેમિસ્ટ્રી વિષયાતીલ પદબ્યુન્નર ધારકાસાઠી) ii) ૪૫૦૦-૭૦૦૦ (વરીલ શૈક્ષણિક અહેંતે વ્યતિરિકત ઇતરાસાઠી	i) ૧૩૦૦-૩૪૮૦૦ (ફિજીક્સ/ કેમિસ્ટ્રી વિષયાતીલ પદબ્યુન્નર ધારકાસાઠી) ii) ૫૨૦૦-૨૦૨૦૦ (વરીલ શૈક્ષણિક અહેંતે વ્યતિરિકત ઇતરાસાઠી	૪૩૦૦ ૨૮૦૦	
૧૭૦.	તંત્રસહાયક નિરંતર શિક્ષણ કેન્દ્ર / Technical Assistant Continuing Education Centre	૫૫૦૦-૧૦૦૦	૧૩૦૦-૩૪૮૦૦	૪૩૦૦	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
<b>Rs.</b> <b>Rs.</b> <b>Rs.</b>					
१७१.	खाद्यपेय व्यवस्थापक/केटरिंग मॅनेजर(स्थावर)/Catering Manager/ Catering Manager (Estate)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१७२.	सहायक कार्यक्रम संयोजक/ सहायक कार्यक्रमकर्ता / Assistant Programmer	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१७३.	संग्रहालय सहायक/सहायक संग्रहालयपाल/Museum Assistant/Assistant Keeper of Museum	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१७४.	कॉम्प्युटर प्रोग्रेमर (लोणेरे)/ ट्रेनी प्रोग्रेमर/Computer Programmar (Lonere)/ Trainee Programmer	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१७५.	उद्यान सहायक/उद्यान पर्यवेक्षक/Garden Assistant/Garden Supervisor.	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१७६.	स्वागतकार/Receptionist	i) ५५००-९००० (for pre 1978 employees) ii) ४०००-६००० (for others)	i) ९३००-३४८०० (for pre 1978 employees) ii) ५२००-२०२०० (for others)	४३०० २४००	
१७७.	यांत्रिक/उपकरण यांत्रिकी(आयसीटी, मुंबई) Mechanic/ Instrument Mechanic (ICT, Mumbai)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
१७८.	सार्वजनिक आरोग्य परिचारिका/हेल्थ सेंटर नर्स/ कक्ष परिचारिका/प्रशिक्षित परिचारिका आरोग्यकेंद्र) / Public Health Nurse/ Health Centre Nurse / Ward Sister./ Trained Nurse (Health Centre)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
१७९.	आधिपरिचारिका/ परिचारिका/ परिचारिका-नि-सचिव/ परिचारिका आरोग्यकेंद्र / Staff Nurse/ Nurse/ Nurse-cum-Secretary /Trained Nurse (Health Centre)	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००	
१८०.	तंत्र सहायक (इलेक्ट्रॉनिक/ रसायनशास्त्र /मानववंश शास्त्र/ प्राणीशास्त्र/ संज्ञापन व वृत्तपत्रविद्या/ छायाचित्रण भौतिकशास्त्र/ बायोइन्फर्मेटिक्स) / Technical Assistant (Electronic/ Chemistry/ Anthropology / Zoology/Journalism/ Photography Physics /Bioinformatics)	i) ५०००-८००० (for pre 1978 Employees )  ii) ४५००-७००० (for others)	i) ९३००-३४८०० (for pre 1978 Employees )  ii) ५२००-२०२०० (for others)	४२००  २८००	
१८१.	मुख्य भांडार रक्षक/Head Store Guard	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००	
१८२.	कनिष्ठ मुख्य लिपिक/Junior Head Clerk	i) ५०००-८००० (for pre 1978 Employees )  ii) ४०००-६००० (for others)	i) ९३००-३४८०० (for pre 1978 Employees )  ii) ५२००-२०२०० (for others)	४२००  २४००	
१८३.	सहायक वसतिगृह अधीक्षक/ वसतिगृह अधीक्षक सहायक/ Assistant Hostel Superintendent/ Hostel Superintendent Assistant	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
१८४.	तंत्रज्ञ / तंत्रज्ञ रिफेक्टरी/ तंत्रज्ञ (वनस्पतीशास्त्र- रिफेक्टरी/ तंत्रज्ञ (आरोग्य केंद्र)/जनरल टेक्नीशियन (भौतिकशास्त्र)/ लॅब टेक्निशियन/प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ (क्ष किरण) / सर्वसाधारण तंत्रज्ञ/ जनरल टेक्निशिअन/ तंत्रज्ञ 'बी'(युसिक)/ कार्यशाळा तंत्रज्ञ/ Technician / Technician Refractory/ Technician (Botany-Refactory/ Technician (Health Centre)/ General Technician (Physics)/ Lab. Technician/ Laboratory Technician (x-Ray)/ General Technician/ Technician 'B'(USIC)/ Technician/ Workshop Technician	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
१८५.	चित्रपट चालक/Film Operator	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
१८६.	आरेखक-नि-अंदाजकारक/ आरेखक नि छायाचित्रकार / Draftsman-cum- Estimator/ Draftsman- cum-Photographer	i) ४५००-७०००	i) ५२००-२०२००	२८००	
		ii) ५०००-८००० (४ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)	ii) ९३००-३४८०० (४ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)	४२००	
१८७.	आरेखक-नि-सहायक (स्थावर) / आरेखक -नि- कलाकार / Draftsman- cum-Assistant (Estate) /Draftsman-cum-Artist	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
१८८.	कार्य पर्यवेक्षक/Work Supervisor	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
१८९.	कनिष्ठ लेखापाल/Junior Accountant	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
१९०.	आरेखक/ Draftsman	(i) ४५००-७०००	(i) ५२००-२०२००	(i) २८००	
		(ii) ५०००-८००० (४ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवांतर)	(ii) ९३००-३४८०० (४ वर्षाच्या अर्हताकारी सेवेनंतर)	(ii) ४२००	
१९१.	सर्वेक्षक/Surveyor	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
१९२.	संगणक चालक/ संगणक यंत्रचालक/ Computer Operator /Computer Machine Operator	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
१९३.	प्रयोगशाळा-नि-सर्वसाधारण सहायक (निवडश्रेणी)/ Laboratory -cum- General Assistant (Selection Grade)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
१९४.	वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहायक / प्रयोगशाळा सहायक (तांत्रिक) लोणेर/ Senior Laboratory Assistant/ Laboratory Assistant (Technical), Lonere	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
१९५.	नकाशा अभिरक्षक/ नकाशाकार /Map Curator	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
१९६.	छिद्रांक चालक/Punch Operator	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
१९७.	कार्यशाळा यांत्रिक / Workshop Mechanic	(i) ४५००-७००० (for Diploma Holders) (ii) ४०००-६००० (for others)	(i) ५२००-२०२०० (for Diploma Holders) (ii) ५२००-२०२०० (for others)	(i) २८००  (ii) २४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
१९८.	अभियांत्रिकी सहायक/ Engineering Assistant.	(i) ४५००-७००० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) ४०००-६००० <b>(For Others)</b>	(i) ५२००-२०२०० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) ५२००-२०२०० <b>(For Others)</b>	२८०० २४००	
१९९.	रसायन अभियांत्रिकी सहायक/Chemical Engineering Assistant.	(i) ४५००-७००० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) ४०००-६००० <b>(For Others)</b>	(i) ५२००-२०२०० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) ५२००-२०२०० <b>(For Others)</b>	२८०० २४००	
२००.	अंधारखोली सहायक/ Dark Room Assistant	(i) ४५००-७००० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) ४०००-६००० <b>(For Others)</b>	(i) ५२००-२०२०० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) ५२००-२०२०० <b>(For Others)</b>	२८०० २४००	
२०१.	पथदर्शी संयंत्र सहायक/Pilot Plant Assistant	(i) ४५००-७००० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) ४०००-६००० <b>(For Others)</b>	(i) ५२००-२०२०० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) ५२००-२०२०० <b>(For Others)</b>	२८०० २४००	
२०२.	रंगगृह सहायक/ Dye House Assistant	(i) ४५००-७००० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) ४०००-६००० <b>(For Others)</b>	(i) ५२००-२०२०० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) ५२००-२०२०० <b>(For Others)</b>	(i) २८०० (ii) २४००	
२०३.	काच फुगारी/काच फुगारी (रसायन) /Glass Blower/ Glass Blower(Chemistry)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२०४.	संग्रहालय सहायक/सहायक संग्रहालयपाल Museum Assistant/Assistant Museum Keeper	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२०५.	कनिष्ठ व्यावसायिक सहायक / सहायक ग्रंथपाल (लोणेरे) सहायक ग्रंथपाल (जे.जे.सी.)/ तंत्र सहायक ग्रंथालय/ग्रंथपाल (महाविद्यालय-एसएनडीटी ) /	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			Rs.	Rs.	Rs.
	ग्रंथालय लिपिक (आयसीटी) / Junior Professional Assistant/ Assistant Librarian (J.J.College) Assistant Librarian( Lonere) / Technical Assistant (Library) / Librarian (Collage- SNDTWU)/Library Clerk (ICT,Mumbai)				
२०६.	लायब्ररी कम डॉक्युमेंटेशन असिस्टेंट (जयकर ग्रंथालय)/ ग्रंथालय सहायक/कनिष्ठ ग्रंथालय सहायक/वरिष्ठ सहायक (ग्रंथालय)/Library-cum- Documentation Assistant (Jaykar Library) / Library Assistant /Junior Library Assistant/ Senior Assistant (Library)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२०७.	कनिष्ठ सहायक Junior Assistant	(i) ४५००-७००० (for Mumbai)	(i) ५२००-२०२०० (for Mumbai)	(i) २८००	
		(ii) ४०००-६००० (for .N.MU.Jalgaon)	(ii) ५२००-२०२०० (for .NMU.Jalgaon)	(ii) २४००	
		(iii) ३२००-४९०० (for others)	(iii) ५२००-२०२०० (for others)	(iii) २०००	
२०८.	ए.सी. टेक्निशियन/ए.सी. ऑपरेटर /वातानुकूल यंत्रचालक / A.C.Technician /A.C. Operator/ Air Condition Operator	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२०९.	यु.पी.एस.टेक्निशियन/ U.P.S. Technician	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२१०.	सहायक भांडाररक्षक/ Assistant Store Guard	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
२११.	बनस्पती शास्त्रज्ञ(पुणे) / Botanist(Pune)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२१२.	केमिकल अॅनॅलिस्ट/ Chemical Analyst	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२१३.	प्रयोगशाळा यांत्रिक / Laboratory Mechanic	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२१४.	कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक/ Junior Scientific Assistant	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२१५.	पर्यवेक्षक (परीरक्षण)/ Supervisor Maintenance	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२१६.	दस्तऐवज सहायक/ Documentation Assistant	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२१७.	प्रारुपकार-नि-कलाकार (रसायन) / Draftsmen-cum- Artist (Chemical)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२१८.	तांत्रिक सहायक (पत्रकारिता विभाग) तांत्रिक सहायक (कनिष्ठ श्रेणी) / तांत्रिक सहायक (संगणक) / तांत्रिक सहायक (बी. टेक) /Technical Assistant (Journalism Department)/ Technical Assistant (Lower Grade)/ Technical Assistant (Computer)/ Technical Assistant (B.Tech.)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२१९.	रसायन सहायक (मानवशास्त्र)/ रासायनिक सहायक (पुरातत्व) / Chemical Assistant (Anthropology)/ Chemical Assistant (Archeology)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			Rs.	Rs.	Rs.
२२०.	पुरातत्व शास्त्रीय आरेखक/ पुरातत्वशास्त्र आरेखक/ Archaeological Draftsman	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२२१.	शुष्क रोप परिरक्षक/हर्बेरियम किपर/ हरबेरियम सहायक (वनस्पती शास्त्र) / शुष्क रोप परिरक्षक (वनस्पतीशास्त्र) / शुष्क वनस्पती रक्षक (वनस्पतीशास्त्र) Dry Plants Preserver/ Dry Plants Preserver (Botany) (Botany)/ Herberium Assistant	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२२२.	डाटा एन्टी ऑपरेटर श्रेणी-२ / Data Entry Operator Grade II	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२२३.	आरेखक-नि-लिपिक / Draftsman-cum-Clerk	i) ४५००-७००० <b>(For Diploma Holders)</b>  ii) ५०००-८००० (चार वर्षाच्या अर्हतताकारी सेवेनंतर)  iii) ४०००-६००० <b>(For others)</b>	i) ५२००-२०२०० <b>(For Diploma Holders)</b>  ii) ९३००-३४८०० (चार वर्षाच्या अर्हतताकारी सेवेनंतर)  iii) ५२००-२०२०० <b>(For others)</b>	२८००  ४२००  २४००	
२२४.	मिश्रक /कंपाऊंडर (मिश्रक)/ मिश्रक-नि-लिपिक /मिश्रक-नि- ब्रणोपचारक / कंपाऊंडर-कम- क्लर्क /कंपाऊंडर-कम-डेसर/ Compounder / Compounder-cum- Dresser/ Compounder- cum-Clerk	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२२५.	कॉन्जरवेशनिस्ट/ Conservationist	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
२२६.	सूक्ष्मछायाचित्रकार/ Microphotographist	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२२७.	कलाकार (प्राणीशास्त्र) / Artist (Zoology)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२२८.	कलाकार नि -तंत्रसहायक/ Artist-cum-Technical Assistatnt	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२२९.	संशोधन तंत्रज्ञ/इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञ (रसायनशास्त्र विभाग) / Research Technician/ Electronic Technician (Chemistry Department)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२३०.	वैद्यकीय अभिलेख तंत्रज्ञ/ Medical Record Technician	(i) ४५००-७००० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) ४०००-६००० <b>(For Others)</b>	i) ५२००-२०२०० <b>(For pre 1978 employees)</b> ii) ५२००-२०२०० <b>(For Others)</b>	२८०० २४००	
२३१.	रक्षक महिला वसतिगृह /रक्षक पुरुष वसतिगृह/ Warden Ladies Hostel/ Warden Men's Hostel	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२३२.	वरिष्ठ सहायक (उद्यान)/ Senior Assistant (Garden)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२३३.	टंकलेखनयंत्र यांत्रिक / Typewriter Mechanic	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२३४.	उत्खनन कलाकार / Excavation Artist	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२३५.	प्रभारक /विद्युत प्रभारक सहायक /विद्युत प्रभारक / विद्युत आवेशक/ Chargeman/ Electrical Chargeman Assistant / Electric Chargeman/ Electric Overseer	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
२३६.	कलाकार-नि-छायाचित्रकार / छायाचित्रकार-नि-कलाकार / Artist-cum-Photographer/ Photographer -cum-Artist	i) ४५००-७०००  ii) ४०००-६०००	५२००-२०२००  ५२००-२०२००	२८००  २४००	
२३७.	छायाचित्रकार (भूगोल) / Photographer (Geography)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२३८.	आरेखक-नि-कलाकार (रसायनशास्त्र)/ Draftsman- cum-Artsit (Chemistry)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२३९.	यांत्रिकी/यांत्रिक (आय.सी.टी.)/ Mechanic / Mechanic (I.C.T)	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
२४०.	अभिलेखापाल/ वैद्यकीय अभिलेखापाल/मेडिकल रेकॉर्ड किपर / Record keeper/ Medical Record keeper	(i) ४५००-७००० (for Pune, Nanded)  (i) ४०००-६००० (for remaining all Univ.)	(i) ५२००-२०२०० for Pune, Nanded)  (i) ५२००-२०२०० (for remaining all Univ.)	(i) २८००  (ii) २४००	
२४१.	प्रयोगशाळा सहायक / Laboratory Assistant	(i) ४०००-६००० (for Amarawati, Aurangabad, Jalgaon, Kolhapur, Solapur, Lonere Univ.)  (ii) ३२००-४९०० (for others)	(i) ५२००-२०२०० (for Amarawati, Aurangabad, Jalgaon, Kolhapur, Solapur, Lonere Univ.)  (ii) ५२००-२०२०० (for others)	(i) २४००  (ii) २०००	
	(ii) प्रयोगशाळा सहायक Laboratory Assistant	(i) ४०००-६००० (For pre 1978 employees of Mumbai, SNDT, Nagpur)  (ii) ३२००-४९०० (for others)	(i) ५२००-२०२०० (For pre 1978 employees of Mumbai, SNDT, Nagpur)  (ii) ५२००-२०२०० (for others)	(i) २४००  (ii) २०००	
२४२.	प्रयोगशाळा सहायक तथा लिपिक/प्रयोगशाळा-नि- सर्वसाधारण सहायक/ Laboratory Assistant Clerk/Laboratory-cum- General Assistant	४०००-६००० (for Pune)	५२००-२०२०० (for Pune)	२४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
२४३.	कनिष्ठ प्रयोगशाळा सहायक / Junior Laboratory Assistant	(i) ४०००-६००० (For pre 1978 employees) (ii) ३२००-४९०० (for others)	(i) ५२००-२०२०० (For pre 1978 employees) (ii) ५२००-२०२०० (for others)	२४००  २०००	
२४४.	लघुटंकलेखक/लघुटंकलेखक (इंग्रजी व मराठी)/ Steno Typist/Steno-typist (English & Marathi)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२४५.	लिपिक (बढतीतून येणा-या उमेदवारासाठी)/ वरिष्ठ लिपिक/ वरिष्ठ श्रेणी लेखनिक/वरिष्ठ श्रेणी लिपिक/वरिष्ठ टंकलेखक/ प्रमुख टंकलेखक/वरिष्ठ लिपिक (सर्वसाधारणे)/ वरिष्ठ लिपिक (लेखा) / लेखा लिपिक /Clerk (Incumbents coming within promoted quota)/ Senior Clerk/ Senior Grade Clerk/ Senior Typist/ Head Typist//Senior Clerk (General-Aurangabad, Pune) / Senior Clerk (Accounts) /Accounts Clerk	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२४६.	उपकरण दुरुस्तीकार/ उपकरण दुरुस्तीकार (मध्यवर्ती कार्यशाळा) / वरिष्ठ यंत्र कारागीर/ उपकरण यांत्रिकी/ Equipment Repairer/ Equipment Repairer (Central Workshop) / Instrument Mechanic	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
२४७.	तंत्रज्ञ (भौतिकशास्त्र/ रसायनशास्त्र) /तंत्रज्ञ 'अ' / तंत्रज्ञ 'अ' (मैकेनिक वर्कशॉप) / तंत्रज्ञ (उपकरणशास्त्र/मध्यवर्ती कार्यशाळा / मायक्रॉलॉजी- वनस्पतीशास्त्र)/ Technician (Physics/ Chemistry)/ Technician' A/ Technician A (Mechanic Workshop) / Technician (Instrumentation/ Central Workshop/ Micrology-Botony)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२४८.	तंत्रज्ञ/ तंत्रज्ञ राजीव विकास केंद्र) / Technician/ Technician (Rajiv Vikas Kendra)	(i) ४०००-६००० (for Kolhapur, Pune, Nagpur)	(i) ५२००-२०२०० (for Kolhapur, Pune, Nagpur)	(i) २४००	
		(ii) ३२००-४९०० (for Pune)	(ii) ५२००-२०२०० (for Pune)	(ii) २०००	
२४९.	साचेकार (पॅटर्न मेकर), लोणेरे /कॅबिनेटमेकर-नि-बंधकार /कोष्ठकार-नि-बंधकार (मध्यवर्ती कार्यशाळा)/ Pattern Maker, Lonere / Cabinet Maker-cum-Pattern Maker/ Cabinet -cum- Pattern Maker(Central Workshop)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२५०.	स्वागतकार/Receptionist	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२५१.	सहायक संगणक चालक (सेट परीक्षा)/Assistant Computer Operator (SET Exam.)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२५२.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (श्रेणी-३)/ Data Entry Operator (Grade-III)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	

(શાસન અધિકૃતના ઉચ્ચ વ તત્ત્વ શિક્ષણ વિભાગ ક્રમાંક : સંકીર્ણ ૨૦૦૯/(૩૨૬/૦૯)-વિશ્લેષણ, દિનાંક ૦૭ ઑક્ટોબર, ૨૦૦૯ ચે સહપત્ર) અનુસૂચી/SCHEDULE

અ. ક્ર./ Sr.No.	પદનામ/ Designation	વિદ્યમાન વેતન શ્રેણી વ અસલ્યાસ , વિશેષ વેતન /Existing and Special Pay, if any	સુધરિત વેતન સરચના/ (Revised pay Structure)		અભિપ્રાય/ (Remarks)
			વેતન બંડ / (Pay Band)	ગ્રેડ વેતન / (Grade Pay)	
(૧)	(૨)	(૩)	(૪)	(૫)	(૬)
૨૫૩.	આધાર સામગ્રી નોંદચાલક (વનસ્પતીશાસ્ત્ર) / Data Entry Operator (Botany)	૪૦૦૦-૬૦૦૦	૫૨૦૦-૨૦૨૦૦	૨૪૦૦	
૨૫૪.	ભાંડારપાલ-નિ-તંત્રજ્ઞ / Store Keeper-cum-Technician	૪૦૦૦-૬૦૦૦	૫૨૦૦-૨૦૨૦૦	૨૪૦૦	
૨૫૫.	સહાયક ભાંડારપાલ/ Assistant Store Keeper	૩૦૫૦-૪૫૯૦	૫૨૦૦-૨૦૨૦૦	૧૯૦૦	
૨૫૬.	સાંખ્યિકી/ સાંખ્યિકી સહાયક સહાયક સાંખ્યિકી/ Statistician/Statistical Assistant	૪૦૦૦-૬૦૦૦	૫૨૦૦-૨૦૨૦૦	૨૪૦૦	
૨૫૭.	લિકિવિડ નાયટ્રોજન પ્લેન્ટ ચાલક/લિકિવિડ નાયટ્રોજન પ્લેન્ટ ઓપરેટર (ભૌતિકશાસ્ત્ર) ગ્યાસ પ્લેન્ટ ઓપરેટર/ ગ્યાસ પ્લેન્ટ મિસ્ટ્રી / Liquid Nitrogen Plant Operator/ Liquid Nitrogen Plant Operator (Physics)/ Gas Plant Operator/Gas Plant Mistry	૪૦૦૦-૬૦૦૦	૫૨૦૦-૨૦૨૦૦	૨૪૦૦	
૨૫૮.	વરિષ્ઠ વીજતંત્રી/ વીજતંત્રી/ વીજતંત્રી શ્રેણી -૨/કનિષ્ઠ વીજતંત્રી/ ઇલેક્ટ્રિશિયન/ Senior Electrician/ Electrician/ Electrician- Grade-૨ /Junior Electrician	૪૦૦૦-૬૦૦૦	૫૨૦૦-૨૦૨૦૦	૨૪૦૦	
૨૫૯.	વરિષ્ઠ તારતંત્રી / તારતંત્રી/ વાયરમન/ Senior Wireman / Wireman	૪૦૦૦-૬૦૦૦	૫૨૦૦-૨૦૨૦૦	૨૪૦૦	
૨૬૦.	મિસ્ટ્રી/મિસ્ટ્રી (સ્થાવર)/મિસ્ટ્રી- નિ-લિપિક/Mistry / Mistry (Estate)/Mistry- Cum-Clerk	૪૦૦૦-૬૦૦૦	૫૨૦૦-૨૦૨૦૦	૨૪૦૦	
૨૬૧.	ગવંડી/Mason	૪૦૦૦-૬૦૦૦	૫૨૦૦-૨૦૨૦૦	૨૪૦૦	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
२६२.	नळकारागीर/Plumber	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२६३.	जोडारी/Fitter	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२६४.	गवंडी व जोडारी/Mason and Fitter	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२६५.	संधाता /Welder	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२६६.	सुतार/Carpenter	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२६७.	लोहार / Blacksmith	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२६८.	कातारी / Turner	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२६९.	अन्वेषक/Investigator	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२७०.	कार्यशाळा निदेशक (जोडारी, संधाता, पत्रे कारागिर)/ Workshop Instructor	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२७१.	मेक्निक -नि-ड्रायव्हर/ Mechanic-cum-Driver	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२७२.	कार्यशाळा सहायक/ कार्यशाळा सहायक (जे.टी.सी.)/ Workshop Assistant/ Workshop Assistant (J.T.C)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२७३.	प्रशितन-नि-वातानुकूल यांत्रिक (मध्यवर्ती कार्यशाळा)/ Refrigeration and Air Conditioning Mechanic (central Workshop)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२७४.	अर्धवेळ लेखापाल/Part Time Accountant	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२७५.	भांडारपाल नि-लेखा लिपिक (रिफ्कटरी) / भांडारपाल नि - लेखालिपिक रिफ्कटरी/ भांडार रक्षक (रसायन)/ Store Keeper-cum-Accounts Clerk/ Store Keeper refactory/ Store Keeper(chemistry)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			Rs.	Rs.	Rs.
२७६.	यांत्रिकी/सर्वसाधारण यांत्रिक/जनरल मेकेनिक/ यांत्रिक (मध्यवर्ती कार्यशाळा)/ कार्यशाळा मेकेनिक/ कर्मशाळा यांत्रिक (मध्यवर्ती कार्यशाळा) वरिष्ठ यंत्र कारागीर/ यंत्र कारागीर (लोणे) / Mechanic/ General Mechanic/ Workshop Mechanic/ Senior Mechanic/ Mechanic (Lonere)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२७७.	ऑफसेट ऑपरेटर (लोणे)/ Offset Operator (Lonere)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२७८.	बाष्पक परिचर/Boiler Attendant	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२७९.	श्रोतृगृह परिचर/ Auditorium Attendant	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२८०.	१९७८ पूर्वीचे (मुंबई विद्यार्थी) i)लिपिक /Clerk ii)टंकलेखक/Typist iii)टंकलेखक-नि-लिपिक / Typist-cum-Clerk iv) वरिष्ठ टंकलेखक/Clerk	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२८१.	भांडार सहायक/Store Assistant	(i) ४०००-६००० (For pre 1978 employees (ii) ३०५०-४५९० (for others)	(i) ५२००-२०२०० (For pre 1978 employees (ii) ५२००-२०२०० (for others)	२४०० १९००	
२८२.	वरिष्ठ दूरध्वनी चालक/ वरिष्ठ दूरध्वनी यंत्र चालक/दूरध्वनी चालक/टेलिफोन ऑपरेटर/ Senior Telephone Operator/ Telephone Operator	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
२८३.	पंपचालक/ पंपचालक आणि यांत्रिकी /पंप ऑपरेटर-कम - मॅकेनिक/पंप हाऊस मिस्ट्री / पंपीग स्थानक चालक/ तारतंत्री-नि-पंपचालक/तारतंत्री- नि-पंप सहायक/Pump Operator/ Pump Operator- cum-Mechanic/ Pump House Mistry/ Wireman-cum-Pump Operator/ Wireman-cum-Pump Assistant	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२८४.	लेखापाल (लोणेरे)/ उपलेखापाल/ Accountant (Lonere) /Deputy Accountant	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२८५.	रोखपाल (लोणेरे)/ सहायक रोखपाल/ Cashier (Lonere) / Assistant Cashier	४०००-६००० plus special pay for handling cash	५२००-२०२०० plus special pay for handling cash	२४००	
२८६.	कृषी सहायक / culture Assistant	(i)४०००-६००० (i)४५००-७००० (सात वर्षाच्या सेवेनंतर)	(i)५२००-२०२०० (ii)५२००-२०२०० (सात वर्षाच्या सेवेनंतर)	(i)२४०० (ii)२८०० (सात वर्षाच्या सेवेनंतर)	
२८७.	उप आवेक्षक / Sub Overseer	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२८८.	प्राणी चर्मपूरक/ Taxidermist	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२८९.	यंत्र परिचर/ यंत्र परिचर (मध्यवर्ती कार्यशाळा)/ वरिष्ठ यंत्रकारागीर/ यंत्रपरिचर (वनस्पतीशास्त्र)/ Mechanical Attendant/ Mechanical Attendant (Central Workshop)/ Senior Mechanical/ Mechanical Attendant (Botany)	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
२९०.	भाषा प्रयोगशाळा निदेशक / भाषा प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ / Language Laboratory Instructor/ Language Laboratory Technician	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२९१.	उद्यान पर्यवेक्षक / Garden Supervisor	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२९२.	क्षेत्रिक / Fieldman	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२९३.	इंजिनियरलक / Engine Driver	i) ४०००-६००० (For pre 1978 employees ii) ३०५०-४५९० (For others)	i) ५२००-२०२०० (For pre 1978 employees ii) ५२००-२०२०० (For others)	२४०० १९००	
२९४.	घर्षक / Grinder	i) ४०००-६००० (For pre 1978 employees ii) ३०५०-४५९० (For others)	i) ५२००-२०२०० (For pre 1978 employees ii) ५२००-२०२०० (For others)	२४०० १९००	
२९५.	स्वच्छता निरीक्षक / Sanitary Inspector	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
२९६.	ग्रंथालय लिपिक/ सहायक ग्रंथपाल (लोणेरे) /ग्रंथालय सहायक तथा लिपिक (लोणेरे) / Library Clerk /Assistant Librarian (Lonere)/ Library Assistant-cum- Clerk (Lonere)	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
२९७.	औषधनिर्माण सहाय्यक/ Pharmaceutical Assistant	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
२९८.	रिप्रोग्राफिक मशिन चालक/ Reprographic Machine Operator	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
२९९.	औषधनिर्माण रसायनशास्त्र सहाय्यक/Pharmaceutical Chemical Assistant.	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
३००.	आधिकारिक (जे.जे.सी.)/ Curator (J.J.C.)	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३०१.	की छिद्रांक चालक/प्रमुख की छिद्रांक यंत्रचालक/डाटा-नि-छिद्रांक टंकक/प्रमुख छिद्रांक यंत्र चालक/पंच ऑपरेटर (भौतिकशास्त्र) Key Punch Operator/ Data-cum-Punch Operator/ Punch Operator (Physics)	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३०२.	कनिष्ठ दूरध्वनी चालक/कनिष्ठ दूरध्वनी यंत्रचालक/ Junior Telephone Operator/ Junior Telephone Machine Operator	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३०३.	श्रोतृगृह परिचर/ Auditorium Attendant	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३०४.	पर्यवेक्षक /पर्यवेक्षक (स्थावर) / Supervisor/ Supervisor (Estate)	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३०५.	लेखा सहायक/लेखा लिपिक / सहायक (लेखा) / रोखपालांचे सहायक/Account Assistant/ Assistant (Accounts)/ Assistant to Cashier	i) ३२००-४९०० (For pre 1978 employees) ii) ३०५०-४५९० (For others)	i) ५२००-२०२०० (For pre 1978 employees) ii) ५२००-२०२०० (For others)	२००० १९००	
३०६.	प्रमुख भांडारपाल/भांडारपाल-नि-संग्रहालय सहायक/सहायक -नि-भांडारपाल/भांडाररक्षक-नि-तंत्रज्ञ/ भांडाररक्षक-नि-भांडार सहायक-नि-तंत्रज्ञ(प्राणीशास्त्र)/ भांडाररक्षक -नि-संग्रहालय सहायक-नि-तंत्रज्ञ (प्राणीशास्त्र)/भांडाररक्षक/ भांडारपाल-नि-लिपिक Head Storekeeper/ Store Keeper-Museum	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
			Rs.	Rs.	Rs.
	Assistant/Assistant-cum-storekeeper/Store Guard -cum-Technician / Store Guard-cum-Store Assistant-cum-Technician (Zoology)/ Store Guard-cum-Museum Assistant-cum-Technician (Zoology)/ Storeguard/ Storeguard-cum-Clerk				
३०७.	यंत्र परिचर (मध्यवर्ती कार्यशाळा-पुणे)/Machine Attendant (Central Workshop-Pune)	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३०८.	मिस्त्री (कामगार)/ Mistry (Worker)	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३०९.	यांत्रिक (रासायनिक)/ Mechanic (Chemical)	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३१०.	तंत्रज्ञ-नि-आरेखक (रासायनिक) /Technician-cum-Draftsman (Chemical)	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३११.	तंत्रज्ञ (मानसशास्त्र)/ Technician (Psychology)	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३१२.	वरिष्ठ यंत्रवाला/Senior Machineman	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३१३.	सहायक (लिपिक)/ सहायक लिपिक (सर्वसाधारण)/ सहायक (लेखा)/Assistant (Clerk)/ Assistant Clerk (General)/ Assistant (Accounts)	i) ३२००-४९०० (For pre 1978 employees ii) ३०५०-४५९० (For others)	i) ५२००-२०२०० (For pre 1978 employees ii) ५२००-२०२०० (For others)	२००० १९००	
३१४.	सहायक-नि-भांडाररक्षक (संख्याशास्त्र, भूगोल)/ भांडाररक्षक-नि- सहायक (स्थावर)/ भांडाररक्षक-नि-	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
	संग्रहालय सहायक-नि- तंत्रज्ञ (प्राणीशास्त्र)/ Assistant-cum- Storeguard (Statistics,Geography)/Storeg uard-cum-Assistant (Estate)/ /Storeguard-cum- Museum Assistant-cum- Technician (Zoology)				
३१५.	तबलजी/तबलजी-नि- हार्मोनियम वादक / Tabalji/ Tabalji-cum-Harmonium Player	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३१६.	प्राणी काळजीवाहक/प्राणीघर परिचर/अॅनिमल हाऊस अटेंडंट/Animal Care Taker/ Animal House Attendant	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३१७.	कर्षित्र चालक / Tractor Driver	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३१८.	सांख्यिकी यंत्रचालक / Statistical Machine Operator	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३१९.	तंत्रसहायक/तांत्रिक सहायक/तांत्रिक सहायक (नाटक) /Technical Assistant/ Technical Assistant (Drama)	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३२०.	समयपाल / Timekeeper	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३२१.	रेकॉर्ड किपर-नि-लिपिक/ Record Keeper-cum-Clerk	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
३२२.	(i)कनिष्ठ लिपिक टंकलेखक/ कनिष्ठ श्रेणी लिपिक /कनिष्ठ लिपिक/ टंकलेखक /लिपिक टंकलेखक/वसतिगृह लिपिक (लोणे)/ कनिष्ठ सहायक-नि- टंकलेखक Junior Clerk Typist /Junior grade Clerk/Junior Clerk/ Typist/ Clerk Typist / Hostel Clerk (Lonere)/ Junior Assistant-cum-Typist	i) ३२००-४९०० (For pre 1978 employees  ii) ३०५०-४५९० (For others)	i) ५२००-२०२०० (For pre 1978 employees  ii) ५२००-२०२०० (For others)	२०००  १९००	
	(ii)लिपिक/भांडार लिपिक/ लिपिक (लेखा)/ लिपिक-नि- टंकलेखक-रोखपाल/लिपिक- नि- टंकलेखक/टंकलेखक/ कनिष्ठ टंकलेखक /Clerk / Store Clerk/Clerk (Accounts)/ Clerk-cum- Typist-cum-Cashier/ Clerk-cum-Typist/ Typist/Junior Typist	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३२३.	यांत्रिक-नि-टंकलेखक / Mechanic - cum-Typist	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
३२४.	आधिसेविका / Matron	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३२५.	क्षेत्र समाहारक/क्षेत्र सहायक /Field Collector/ Field Assistant	(i)३०५०-४५९० ( For Pune Univ.) (ii)२७५०-४४०० (For others)	(i)५२००-२०२०० ( For Pune Univ.) (ii)४४००-७४४० (For others)	१९००  १८००	
३२६.	प्राणीगृह सहायक/Animal House Assistant	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३२७.	वाहनचालक/Driver	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३२८.	कुलगुरुंचे जमादार/जमादार/ कुलगुरुंचे हवालदार /Jamdar attached to Vice-	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
	Chancellor/ Jamdar/ Hawaldar attached to Vice-Chancellor				
३२९.	सहायक वसातिगृह रक्षक/ Assistant Hostel Warden	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३३०.	अभिरक्षक/Curator	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३३१.	भांडारपाल (जीव तंत्रज्ञान व रासायनिक तंत्रज्ञान विभाग/ Store Keeper (Bio- Technology & Chemical Technology Department)	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३३२.	तांत्रिक सहायक (कनिष्ठ)/ Technical Assistant (Junior)	i) ३०५०-४५९० <b>(For pre 1978 employees)</b> ii) २५५०-३२०० <b>(for others)</b>	i) ५२००-२०२०० <b>(For pre 1978 employees)</b> ii) ४४४०-७४४० <b>(for others)</b>	१९०० १३००	
३३३.	बटवडा सहायक/दफ्तरी/ Dispatch Assistant/ Daftary	(i) ३०५०-४५९० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) २७५०-४४०० <b>(for others)</b>	(i) ५२००-२०२०० <b>(For pre 1978 employees)</b> (ii) ४४४०-७४४० <b>(for others)</b>	१९०० १८००	
३३४.	ग्रंथालय परिचार/ Library Attendant	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३३५.	प्रयोगशाळा परिचार/ Laboratory Attendant	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३३६.	चालक-नि-तंत्रज्ञ / Driver- cum-Technician	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३३७.	सुरक्षा पर्यवेक्षक (पुणे)/ Security Supervisor(Pune)	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३३८.	पेंटर/चित्रकार/रंगारी Artist/Painter	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३३९.	संपादकीय सहायक (तत्वज्ञान) / Editorial Assistant (Philosophy)	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
३४०.	भांडारपाल परिचर / Store Attendant	(i) ३०५०-४५९० (For pre 1978 employees) (ii) २६१०-४००० (for others)	(i) ५२००-२०२०० (For pre 1978 employees) (ii) ४४४०-७४४० (for others)	१९००  १६००	
३४१.	सहायक अभिलेखापाल/ Assistant Record Keeper	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३४२.	सराफ / Saraf	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३४३.	नक्कल लेखक-नि-टंकलेखक /Copywriter-cum-Typist	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३४४.	तांत्रिक-गणितशास्त्रीय टंकलेखक / Technical-Mathematical-Typist	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३४५.	भाषा प्रयोगशाळा सहायक / Language Laboratory Assistant	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३४६.	खानसामा/स्वयंपाकी / खानसामा (गेस्ट-हाऊस)/ Khansama/Cook /Khansama (Guest House)	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३४७.	ओ.व्ही. एड. यंत्र चालक/ A.V.Aid Machine Operator	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३४८.	भट्टी परिचर / Furnace Attendant	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३४९.	अनुरेखक/Tracer	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३५०.	कुशल कामगार/Skilled Worker	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३५१.	चटई सहायक (क्रीडा)/ Map Assistant (Sport)	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३५२.	मुकादम Mukadam	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३५३.	तारमार्गतंत्री/ Lineman	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
३५४.	लिफ्टमन / Liftman	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
Rs.		Rs.		Rs.	
३५५.	झेरोग्राफर यंत्रचालक / Zerographer Machine Operator	(i) ३०५०-४५९० (For pre 1978 employees) (ii) २७५०-४४०० (for others)	(i) ५२००-२०२०० (For pre 1978 employees) (ii) ४४४०-७४४० (for others)	१९००  १८००	
३५६.	हवालदार / Havaldar	(i) २७५०-४४०० (For pre 1978 employees) (ii) २६१०-४००० (for others)	(i) ४४४०-७४४० (For pre 1978 employees) (ii) ४४४०-७४४० (for others)	१८००  १६००	
३५७.	बाहक /ऑर्डलरी/ Bearer/Orderly	(i) २७५०-४४०० (For pre 1978 employees) (ii) २६१०-४००० (for others)	(i) ४४४०-७४४० (For pre 1978 employees) (ii) ४४४०-७४४० (for others)	१८००  १६००	
३५८.	झेरॉक्स ऑपरेटर/झेरॉक्स यंत्रचालक/ झेरॉक्स चालक - नि-शिपाई/Xerox Operator/Xerox Machine Operator/ Xerox Operator- cum-Peon	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३५९.	सायकल सहाय्यक/ Cycle Assistant	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३६०.	यंत्रचालक /रोनीओ यंत्रचालक/ सायकलोस्टाईल ऑपरेटर/ सायकलोस्टाईल असिस्टंट /चक्रमुद्रण यंत्रचालक/ चक्र मूद्रक/चक्रमुद्रित यंत्रचालक/ डुप्लीकेटिंग यंत्रचालक / Machine Operator /Roneo Machine Operator/ Cyclostyle Operator/ Cyclostyle Assistant/ Cyclostyling Operator/ Duplicating Machine Operator	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	

(શાસન અધિસૂચના ઉચ્ચ વ તત્ત્વ શિક્ષણ વિભાગ ક્રમાંક : સંકીર્ણ ૨૦૦૯/(૩૨૬/૦૯)-વિશ્િં-૧, દિનાંક ૦૭ ઑક્ટોબર, ૨૦૦૯ ચે સહપત્ર) અનુસૂચી/SCHEDULE

અ. ક્ર./ Sr.No.	પદનામ/ Designation	વિદ્યમાન વેતન શ્રેણી વ અસલ્યાસ , વિશેષ વેતન /Existing and Special Pay, if any	સુધરિત વેતન સરચના/ (Revised pay Structure)		અભિપ્રાય/ (Remarks)
			વેતન બંડ / (Pay Band)	ગ્રેડ વેતન / (Grade Pay)	
(૧)	(૨)	(૩)	(૪)	(૫)	(૬)
૩૬૧.	નિવાસી દેવડીવાલા / Resident Janitor	(i) ૨૭૫૦-૪૪૦૦ (For pre 1978 employees) (ii) ૨૬૧૦-૪૦૦૦ (for others)	(i) ૪૪૪૦-૭૪૪૦ (For pre 1978 employees) (ii) ૪૪૪૦-૭૪૪૦ (for others)	૧૮૦૦ ૧૬૦૦	
૩૬૨.	ઉદવાહક / Liftman	(i) ૨૭૫૦-૪૪૦૦ (For pre 1978 employees) (ii) ૨૬૧૦-૪૦૦૦ (for others)	(i) ૪૪૪૦-૭૪૪૦ (For pre 1978 employees) (ii) ૪૪૪૦-૭૪૪૦ (for others)	૧૮૦૦ ૧૬૦૦	
૩૬૩.	મુખ્ય માળી /માળી/માળી-નિ- પહરેકરી/સહાયક માળી/માળી -નિ-ભિસ્તી/Head Mali/ Mali/ Gardner/Mali-cum- Watchman/ Assistant Mali/ Mali-cum-Bhisti	૨૭૫૦-૪૪૦૦	૪૪૪૦-૭૪૪૦	૧૮૦૦	
૩૬૪.	મુકાડમ / પ્રમુખ પહારેકરી /મુખ્ય ચૌકીદાર/પ્રમુખ ચૌકીદાર/દરોગા/નાઇક Mukadam /Head Watchman/ Head Chowkidar/Daroga/ Naik	૨૭૫૦-૪૪૦૦	૪૪૪૦-૭૪૪૦	૧૮૦૦	
૩૬૫.	અતિથીગૃહ પરિચર/પરિચર-નિ- સ્વયંપાકી/Guest House Attendant/Attendant-cum- Cook	૨૭૫૦-૪૪૦૦	૪૪૪૦-૭૪૪૦	૧૮૦૦	
૩૬૬.	સંગ્રહાલય સ્વચ્છક/ Musium Cleaner	૨૭૫૦-૪૪૦૦	૪૪૪૦-૭૪૪૦	૧૮૦૦	
૩૬૭.	સેકશન કટર/સેકશન કટર-નિ- ગ્રાઇડર/ સેકશન કટર ગ્રાઇડર/ Section Cutter/ Section Cutter-cum-Grinder/ Section Cutter Grinder	૨૭૫૦-૪૪૦૦	૪૪૪૦-૭૪૪૦	૧૮૦૦	
૩૬૮.	પ્લાંટ કલેક્ટર/રોપ સંગ્રહક/ Plant Collector	૨૭૫૦-૪૪૦૦	૪૪૪૦-૭૪૪૦	૧૮૦૦	
૩૬૯.	અંધારખોળી સહાયક/Dark- Room Assistant	૨૭૫૦-૪૪૦૦	૪૪૪૦-૭૪૪૦	૧૮૦૦	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
३७०.	सुतार मदतनीस/ सुतार सहायक/ Assistant to Carpenter/Helper to Carpenter	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३७१.	गवंडी सहायक/Mason Assistant	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३७२.	परिचर /वसतिगृह परिचर / Attendant/Hostel Attendant	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३७३.	सहायक खानसामा/ खानसामा सहायक /Assistant Khansama/ Assistant to Khansama	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३७४.	ब्रणोपचारक/वार्ड बॉय/ आरोग्य परिचर/Dresser/Ward boy/Health Attendent	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३७५.	वितरक/वितरक (मुद्रण)/ Distributor/Distributor (Press)	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३७६.	मुद्रित काढणारा/Proof Puller	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३७७.	शाई पुरक/Inker	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३७८.	तारमार्गतंत्री-नि-शिपाई/ Lineman-cum-Peon	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३७९.	तारमार्गतंत्री-नि-तारतंत्री/ Lineman-cum-Wireman	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३८०.	ग्राउंडसमन/Groundsman	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३८१.	तारतंत्री-मदतनीस/ Helper to Wireman	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३८२.	मल्टिग्राफर/Multigrapher	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३८३.	पुस्तक दुरुस्तीकार/ Book Repair	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३८४.	अर्धकुशल परिचर/ Semi Skill Attendant	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
३८५.	छंदकर्मशाळा परिचर/Hobby Workshop Attendant	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३८६.	काळजीवाहक/Caretaker	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३८७.	रेखक/Marker	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३८८.	सूक्ष्मजीवशास्त्रीय सहायक / Microbiological Assistant	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३८९.	आवेष्टक/Packer	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३९०.	नळ कारागिर सहायक/सहायक नळ कारागिर/नळकारागीर मदतनीस/ Helper to Plumber/Assistant to Plumber	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३९१.	तंत्रसहायक (संधाता)/ Technical Assistant (Welder)	२७५०-४४००	४४४०-७४४०	१८००	
३९२.	शिपाई /शिपाई -नि-पहारेकरी/ शिपाई -नि-सुतार/शिपाई -नि- हमाल/शिपाई (सेवक)/सेवक /चपराशी/शिपाई -नि- प्रयोगशाळा परिचर/ शिपाई - नि-ग्रंथालय परिचर/परिचर- हमाल/Peon/Peon- cum- Watchman/Peon-cum- Carpenter/Peon-cum- Hamal/Peon/Peon-cum- Laboratory Attendant/Peon-cum- Library Attendant./ Attendant-Hamal	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००	
३९३.	रिक्षा ड्रायव्हर/ Rikshaw Driver	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००	
३९४.	चौकीदार /पहारेकरी/ पहारेकरी- नि-शिपाई//रात्र पहारेकरी / तारमार्गतंत्री-नि-पहारेकरी/	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEDE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधरित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
	लाईनमन-नि-पहारेकरी / राखणदार/ Chowkidar/ Watchman/ Night Watchman/ Watchman- cum-Peon/ Lineman-cum- watchman/ Lineman-cum- Watchman				
३९५.	मदतनीस /रंगमंच मदतनीस/ प्रयोगशाळा मदतनीस/सुतार मदतनीस/गवंडी सहायक/क्षेत्र सहायक/गँगमन/टोळकर/ सायकलो सहायकाचा मदतनीस/ तारतंत्री मदतनीस/ मदतनीस मजूर(एल.आय.टी.) अभियांत्रिकी विभाग) /Helper/ Stage Helper/ Laboratory Helper/Helper to Mason /Helper to Carpenter /Field Assistant/ Gangman/ Helper to Cyclo Assistant/Helper to wireman/ Helper Cooli (L. I. T. ) Engineering Depart.	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००	
३९६.	सफाईगार/सफाईगार-नि-शुश्रूषा ऑर्डली / सुश्रूषा सेवक/स्वच्छक/ फराश/ स्वच्छक-नि-कुली/ स्वच्छक - नि-ताड काळजीवाहक/ सफाईगार-नि-शिपाई/ Sweeper/ Sweeper-cum- Nursing orderly/ Nursing orderly / Sweeper/Farash/ sweeper-cum-Coolie/ Sweeper-cum-Peon	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
		Rs.	Rs.	Rs.	
३९७.	डोमेस्टिक सर्व्हंट (शिपाई)/ Domestic Servant (peon)	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००	
३९८.	रेजा / Reja	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००	
३९९.	प्रपत्र पुरवठाकार/ Form Supplier	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००	
४००.	अभिलेखवाहक / Record Lifter	२६१०-४०००	४४४०-७४४०	१६००	
४०१.	खुर्ची विणकर/ Chair Reckoner	२५५०-३२००	४४४०-७४४०	१३००	
४०२.	हलालखोर / Halalkhore	(i) २६१०-४००० (For pre 1978 employees) (ii) २५५०-३२०० (For Others)	(i) ४४४०-७४४० (For pre 1978 employees) (ii) ४४४०-७४४० (For Others)	१६०० १३००	
४०३.	हमाल/हमाल-नि-शिपाई/ हमाल- नि-पहरेकरी/हमाल-नि-माळी / हमाल-नि-सफाईगार/ मजूर-नि- हमाल/ मदतनीस/ मजूर/मजूर-नि- परिचर/अभियांत्रिकी मजूर/भांडार मजूर/प्रेस हमाल/ स्त्री कामगार/ मोलकरीण/ उद्यान मजूर/ प्रयोगशाळा मदतनीस/ मदतनीस मजूर (एलआयटी-अभियांत्रिकी विभाग)/Hamal/Hamal-cum- Peon/ Hamal-cum- Watchman/ Hamal-cum- Sweeper/ Hamal-cum-Mali/ Labour-cum-Hamal/ Helper/ Labour/Labour- cum-Attendant/ Store Coolie/ Engineering Coolie/Press Hamal/ Lady Worker/ Made Servant/ Garden Coolie/Laboratory Helper/ Helper Coolie	(i) २६१०-४००० (For pre 1978 employees)  (ii) २५५०-३२०० (For Others)	४४४०-७४४० (For pre 1978 employees)  ४४४०-७४४० (For Others)	१६०० १३००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)

Rs.                    Rs.                    Rs.

अकृषि विद्यापीठांशी संलग्नित असलेल्या अशासकीय अनुदानित महाविद्यालयातील शिक्षकेतर कर्मचारी/  
Non-Teaching Staff of Non-Government aided Colleges affiliated with Non-Agricultural Universities.

१	अशासकीय वरिष्ठ महाविद्यालयातील कुलसचिव (चार हजारपेक्षा अधिक विद्यार्थी संख्या असलेल्या Registrar of Non- Government Senior Colleges (Having Students Strength more than ४०००),	७४५०-११५००	९३००-३४८००	४६००	
२	कुलसचिव /Registrar	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
३	लघुलेखक /Stenographer	६५००-१०५००	९३००-३४८००	४४००	
४	अधीक्षक/Superintendent	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
५	लेखापाल / Accountant	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
६	लघुलेखक (मिश्रेणी) / Stenographer (Lower grade)	५५००-९०००	९३००-३४८००	४३००	
७	मुख्य लिपिक/सहायक अधीक्षक/Head Clerk/ Assistant Superintendent	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००	
८	उपलेखापाल / Deputy Accountant	५०००-८०००	९३००-३४८००	४२००	
९	ग्रंथालय सहायक / सहायक ग्रंथपाल/ Library Assistant/ Assistant Librarian	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
१०	तांत्रिक सहायक/प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ / Technical Assistant/ Laboratory Technician	४५००-७०००	५२००-२०२००	२८००	
११	वरिष्ठ लिपिक/Senior Clerk	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
१२	लेखापाल/सहायक लेखापाल / Accountant/ Assistant Accountant	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
१३	लघुटंकलेखक/लघुलेखक / Steno-Typist / Stenographer	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विशि-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
अनुसूची/SCHEULE

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
१४	वरिष्ठ प्रयोगशाळा सहायक / Senior Laboratory Assistant	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
१५	कुशल तंत्रज्ञ / वीजतंत्री /Skilled Technician /Electrician	४०००-६०००	५२००-२०२००	२४००	
१६	प्रयोगशाळा सहायक (अर्हताप्राप्त) /Laboratory Assistant (Qualified)	i) ४०००-६००० (The pre 1978 employees) ii) ३२००-४९०० (For others)	i) ५२००-२०२०० (The pre 1978 employees) ii) ५२००-२०२०० (For others)	२४०० २०००	
१७	भांडारपाल /Store-Keeper	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
१८	कांषिष्ठ ग्रंथालय सहायक /Junior Library Assistant	३२००-४९००	५२००-२०२००	२०००	
१९	कांषिष्ठ लिपिक/भांडार लिपिक /ग्रंथालय लिपिक/टंकलेखक/ Junior Clerk/Store Clerk/ Library Clerk/ Typist	i) ३२००-४९०० (The pre 1978 employees) ii) ३०५०-४५९० (For others)	i) ५२००-२०२०० (The pre 1978 employees) ii) ५२००-२०२०० (For others)	२००० १९००	
२०	अर्धकुशल तंत्रज्ञ/तारतंत्री/इल कारागीर/ Semi-Skilled Technician/Wiremen /Plumber	३०५०-४५९०	५२००-२०२००	१९००	
२१	प्रयोगशाळा परिचर/ ग्रंथालय परिचर/क्षेत्र समाहरक / Laboratory Attendant /Library Attendant/ Field Collector	i) ३०५०-४५९० ii) २५५०-३२००	i) ५२००-२०२०० ii) ४४४०-७४४०	१९०० १३००	
२२	प्रमुख प्रयोगशाळा परिचर/ हवालदार/जमादार/नाईक Head Laboratory Attendant Havaldar/ Jamadar/Naik	i) २७५०-४४०० (For pre 1978 employees) ii) २६१०-४००० (For others)	i) ४४४०-७४४० (For pre 1978 employees) ii) ४४४०-७४४० (For others)	१८०० १६००	
२३	शिपाई,हमाल/ Peon,Hamal	i) २६१०-४००० (For pre 1978 employees) ii) २५५०-३२०० (For others)	i) ४४४०-७४४० (For pre 1978 employees) ii) ४४४०-७४४० (For others)	१६०० १३००	

(शासन अधिसूचना उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग क्रमांक : संकीर्ण २००९/(३२६/०९)-विः-१, दिनांक ०७ ऑक्टोबर, २००९ चे सहपत्र)  
**अनुसूची/SCHE**

अ. क्र./ Sr.No.	पदनाम/ Designation	विदयमान वेतन श्रेणी व असल्यास , विशेष वेतन /Existing and Special Pay, if any	सुधारित वेतन संरचना/ (Revised pay Structure)		अभिप्राय/ (Remarks)
			वेतन बँड / (Pay Band)	ग्रेड वेतन / (Grade Pay)	
(१)	(२)	(३)	(४)	(५)	(६)
Rs.		Rs.		Rs.	